



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं० 16]

नई दिल्ली, अप्रैल 11—अप्रैल 17, 2004 शनिवार/चैत्र 22—चैत्र 28, 1926

No. 16]

NEW DELHI, APRIL 11—APRIL 17, 2004 SATURDAY/CHAITRA 22—CHAITRA 28, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ-संख्या दी जाती है जिससे कि यह पुस्तक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2004

सा. का. नि. 124.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, उप निदेशक (लेखा) भर्ती नियम, 1986 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, उप निदेशक (लेखा) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, उप निदेशक (लेखा) भर्ती नियम, 1986 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

1. पद का नाम : उप निदेशक (लेखा)

2. पदों की संख्या : 2*

(2004)

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(653)

3. वर्गीकरण : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अनुसूचिवीय
4. वेतनमान : 10000—325—15200 रु.
5. चयन अथवा अचयन पद : लागू नहीं होता
6. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं : लागू नहीं होता
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा : लागू नहीं होता
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं : लागू नहीं होता
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं : लागू नहीं होता
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई : लागू नहीं होता
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता : प्रतिनियुक्ति द्वारा
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा : प्रतिनियुक्ति :—

क. (क) केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 8000-13500 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है, या

(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 7500-12000 रु. या समतुल्य वेतनमान नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है, या

(iv) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 7450-11500 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की है, और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :—

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य, और

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण है, या सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान में रोकड़ और लेखा में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो और जिसके पास रोकड़ लेखा और बजट कार्य में पांच वर्ष अनुभव है।

वांछनीय :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में मास्टर डिग्री या समतुल्य ;

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या कालिज या प्रशिक्षण संस्थान में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में शिक्षण या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का एक वर्ष का अनुभव हो :—

- (क) लेखा/बजट मामले
- (ख) व्यवहारिक विज्ञान
- (ग) निर्णय निर्धारण
- (घ) प्रबन्ध सूचना पद्धति
- (ङ) प्रारंभिक सांख्यिकी
- (च) निष्पादन बजट तैयार करना

ख. जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसा अधिकारी जिसने मूल काडर/विभाग में 6500-10500/- रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है और जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :—

आवश्यक :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य, और
- (ii) जिसने केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान में रोकड़ और लेखा में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो और रोकड़/लेखा और बजट कार्य का पांच वर्ष का अनुभव हो।

वांछनीय :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में मास्टर डिग्री या समतुल्य ;
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या कालिज या प्रशिक्षण संस्थान में निम्नलिखित में से किसी एक विषय में शिक्षण या प्रशिक्षण आयोजित करने का एक वर्ष का अनुभव हो :—

- (क) लेखा/बजट मामले
- (ख) व्यवहारिक विज्ञान
- (ग) निर्णय निर्धारण
- (घ) प्रबन्ध सूचना पद्धति
- (ङ) प्रारंभिक सांख्यिकी
- (च) निष्पादन बजट तैयार करना

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना : लागू नहीं होता

14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक

सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

: इन भर्ती नियमों के किसी उपबंध को शिथिल/संशोधित करने और पद के भरे जाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं.-13016/05/2002-प्रशि. 1]

मनीषा भटनागर, डैस्क अधिकारी

पाद टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 661, तारीख 30 अगस्त, 1986 को प्रकाशित किए गए और सा. का. नि. सं. 444, दिनांक 20-12-2003 के द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)**

New Delhi, the 2nd April, 2004

G.S.R. 124.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Institute of Secretariat Training and Management, Deputy Director (Accounts) Recruitment Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Institute of Secretariat Training and Management, Deputy Director (Accounts) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Institute of Secretariat Training and Management, Deputy Director (Accounts) Recruitment Rules, 1986, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

1. Name of post	: Deputy Director (Accounts)
2. Number of post	: 2* (2004)
	* Subject to variation dependent on workload.
3. Classification	: General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-ministerial
4. Scale of pay	: 10000-325-15200
5. Whether Selection or Non-selection post	: Not applicable
6. Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	: Not applicable
7. Age limit for direct recruits	: Not applicable
8. Educational and other qualifications required for direct recruits	: Not applicable
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	: Not applicable
10. Period of probation, if any	: Not applicable
11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	: By deputation
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	: Deputation : A. (a) Officers under the Central Government :— (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of Rs. 8,000—13,500 or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of Rs. 7500—12000 or equivalent in the parent cadre or Department; and

(iv) with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 7450-11500; or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience :—

Essential :

- (i) Degree from a recognized University or equivalent and
- (ii) A pass in the Subordinate Accounts Service Examination conducted by the Central Government; or

Successful completion of training in the Cash and Accounts in the Institute of Secretariat Training and Management and five years' experience in Cash, Accounts and Budget Work

Desirable :

- (i) Master's Degree in Commerce from a recognized University or equivalent;
- (ii) One year experience of teaching or organizing training programmes in a recognized University or College or Training Institute in any one of the following subjects :—

- (a) Accounts/Budget matters
- (b) Behavioral Science
- (c) Decision Making
- (d) Management Information Systems
- (e) Elementary Statistics
- (f) Performance Budgeting

B. Failing which Officers under the Central Government with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent in the parent cadre or Department and possessing the following educational qualifications and experience :

Essential :

- (i) Degree from a recognized University or equivalent; and
- (ii) A pass in the Subordinate Accounts Service Examination conducted by the Central Government; or

Successful completion of training in the Cash and Accounts in the Institute of Secretariat Training and Management and five years' experience in Cash, Accounts and Budget Work

Desirable :

- (i) Master's Degree in Commerce from a recognized University or equivalent;
- (ii) One year experience of teaching or organizing training programmes in a recognized University or College or Training

Institute in any one of the following subjects :—

- (a) Accounts/Budget matters
- (b) Behavioral Science
- (c) Decision Making
- (d) Management Information Systems
- (e) Elementary Statistics
- (f) Performance Budgeting

(Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed Five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications)".

- | | |
|---|---|
| 13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | : Not applicable |
| 14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment | : Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post and for amendment/relaxation of any provision of these Rectt. Rules. |

[No. 13016/05/2002-Trg.I]

MANISHA BHATNAGAR, Desk Officer

Foot note : The principal rules were published vide Number G.S.R. 661, dated the 30th August, 1986 and amended vide No. G.S.R. 444, dt. 20 December, 2003.

(प्रशिक्षण खण्ड)

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2004

सा. का. नि. 125.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय संकाय अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 1995 को, जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में ज्येष्ठ पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, ज्येष्ठ पुस्तकालय और सूचना सहायक भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहता :—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

- | | |
|---|---|
| 1. पद का नाम | : ज्येष्ठ पुस्तकालय और सूचना सहायक |
| 2. पदों की संख्या | : 8* (2004)
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। |
| 3. वर्गीकरण | : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित, अननुसचिवीय |
| 4. वेतनमान | : 5500-175-9000 रु. |
| 5. चयन अथवा अचयन पद | : लागू नहीं होता |
| 6. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | : लागू नहीं होता। |
| 7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | : 30 वर्ष से अधिक नहीं। |

टिप्पण 1 :—केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्पा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

- | | |
|---|---|
| 8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | : अनिवार्य :
1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य।
2. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री या समतुल्य।
3. किसी मान्यताप्राप्त पुस्तकालय में या किसी मान्यताप्राप्त पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का दो वर्ष का अनुभव। |
|---|---|

या

किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में एक वर्ष का प्रमाण पत्र या समतुल्य।

टिप्पण 1 :—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं : लागू नहीं होता
10. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो : दो वर्ष।
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता : सीधी भर्ती :—
 टिप्पण 1 :—ज्येष्ठ पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद में समामेलन और 5500—9000 रु. के पुनरीक्षित वेतनमान में उन्नयन से पूर्व 5000—8000 रु. के पुरीक्षित वेतनमान में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पदों के नियमित धारक की उपयुक्तता और सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं प्रारम्भतः उन्नत पदों पर नियुक्ति के लिए स्तंभ 13 में विहित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी। यदि 'उपयुक्त' निर्धारित किया जाता है तो उसे प्रारम्भिक गठन पर पद पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा। यदि उन्नत वेतनमान में नियुक्ति के लिए 'उपयुक्त नहीं' निर्धारित किया जाता है तो वह 5000—8000 रु. के पुनरीक्षित वेतनमान में बना रहेगा और उसके मामले का प्रति वर्ष पुनर्विलोकन किया जाएगा।
 टिप्पण 2 :—पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन की छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेगी—
 (क) (i) जो मूल कांडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पर धारण किए हुए हैं, या
 (ii) जिन्होंने मूल कांडर/विभाग में 5000—8000 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है
 (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।
 (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाध्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा : लागू नहीं होता।
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना : पुष्टि और उन्नत वेतनमान में तैनाती के लिए उपयुक्तता निर्धारित करने के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—
 1. संयुक्त निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—अध्यक्ष
 2. उप निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—सदस्य
 3. प्रधान पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[सं. 13012/2/98-अकादमी डैस्क]

जगमोहन गुप्ता, निदेशक

(Training Division)

New Delhi, the 6th April, 2004

G.S.R. 125.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of, the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Library Faculty Non-Gazetted posts Recruitment Rules, 1995, in so far as they relate to the post of Senior Library and Information Assistant except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Library and Information Assistant in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Senior Library and Information Assistant Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of said posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and in consultation with the Union Public Service Commission and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of post	: Senior Library and Information Assistant.
2. Number of posts	: 08* (2003)
	*Subject to variation dependent on workload.
3. Classification	: General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.
4. Scale of pay	: Rs. 5500-175-9000.
5. Whether selection or Non-Selection Post	: Not applicable.
6. Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	: Not applicable.
7. Age limit for direct recruits	: Not exceeding 30 years.

Note : 1 : Relaxable for Government servants upto 3 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note 2 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

8. Educational and other qualifications required for direct recruits.

ESSENTIAL :

1. Degree from a recognized University or equivalent;
2. Bachelors' Degree in Library Science from a recognized University/Institute or equivalent.
3. Two years' experience in a recognized Library or computerization of a recognized Library.

OR

One year's certificate in computer application from a recognized institute or equivalent.

Note 1 :—Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 :—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees

: Not applicable.

10. Period of probation if any

: Two years

11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

: Direct recruitment.

Note 1 :—The suitability of the regular holder of the post of Library and Information Assistant in the revised pay scale of Rs. 5000—8000 prior to merger with the post of Senior Library and Information Assistant and upgradation to the revised pay scale of Rs. 5500—9000 and possessing the Educational qualifications prescribed for direct recruitment will be initially assessed by the Departmental Promotion Committee prescribed in column 13 for appointment to the upgraded posts. If assessed suitable he shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution. If assessed 'not suitable' for appointment to the upgraded scale of pay he shall continue to be in the revised scale of Rs. 5000—8000 and his case would be reviewed every year.

Note 2 :—Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government;

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department; or
- (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5000—8000 or equivalent in the parent cadre/Department; and

- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.
- (Period of deputation including period of deputation in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).
12. In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made : Not applicable
13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition : Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation and assessing suitability for placement in the upgraded scale of pay consisting of :
1. Joint Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration—Chairman
 2. Deputy Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration—Member
 3. Principal Library and Information Officer, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration—Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment. : Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No. 13012/2/98-Academy Desk]

JAGMOHAN GUPTA, Director

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2004

सा. का. नि. 126.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी (ज्येष्ठ निजी सहायक) भर्ती नियम, 1999 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी (ज्येष्ठ निजी सहायक), भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी (ज्येष्ठ निजी सहायक), भर्ती नियम, 1999 की अनुसूची में, स्तंभ 1 के अधीन, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“निजी सचिव”

[सं. ए. 11018/6/2003-आर.आर./एमई-IV]

महा बीर प्रसाद, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम, सं. सा.का.नि. 257, तारीख 14-8-1999 (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) अधिसूचना सं. ए. 11018/12/96-आर.आर./एम.ई. (पी.जी.) तारीख, 29 जुलाई, 1999 द्वारा प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 29th March, 2004

G.S.R. 126.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry (Senior Personal Assistant) Recruitment Rules, 1999, namely :—

1. (1) These rules may be called the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry (Senior Personal Assistant), Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry (Senior Personal Assistant), Recruitment Rules, 1999; under column 1, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

“Private Secretary”

[No. A. 11018/6/2003-RR/ME-IV]

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

Note :—The Principal rules were published vide GSR No. 257, dated 14-8-1999 (Ministry of Health and Family Welfare) Notification No. A. 11018/12/96-RR/ME (PG), dated 29th July, 1999.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2004

सा. का. नि. 127.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि और सहकारिता विभाग के अधीन राष्ट्रीय बीज अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र में समूह 'क' और समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बीज अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान यह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएँ :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहता :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध के अन्वये या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात ऐसे, आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. पद का नाम	:	निदेशक
2. पदों की संख्या	:	एक* (2004)
		* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	:	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय
4. वेतनमान	:	14,300-400-18,300 रु.
5. चयन पद या अचयन पद	:	लागू नहीं
6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	:	50 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य का लद्दाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला तथा चम्बा-जिले का पांगी सब-डिवीजन, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में रहने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि)
7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	:	हां; जैसाकि केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	:	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में एम.एस.सी. अथवा समतुल्य। (ii) बीज उत्पादन/बीज विपणन/बीज प्रमाणीकरण/बीज परीक्षण/बीज क्वालिटी नियंत्रण/बीज विकास कार्यक्रमों में दस वर्ष का अनुभव। वांछनीय : बीज उत्पादन/बीज विपणन/बीज प्रमाणीकरण/बीज परीक्षण/बीज क्वालिटी नियंत्रण के क्षेत्र में पी.एच.डी.। टिप्पण 1 :—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	:	लागू नहीं
10. परीक्षा की अवधि यदि कोई हो	:	केवल सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष।

11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा : सम्मिश्र पद्धति प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) तथा प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अंतरण किया जाएगा : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है /प्रोन्नति)
1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/कृषि विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/स्वाशासी संगठनों/अर्ध-सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी :—
(क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 12000-16500 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् उसमें पांच वर्ष सेवा की है, और
(ख) कालम 8 में सीधे भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।
2. 12000-16500 रुपए के वेतनमान में विभागीय बीज प्रौद्योगिकीविद्/मुख्य बीज विश्लेषक के जिसने पांच वर्ष सेवा की हो, आवेदन पर भी प्रतिनियुक्ति वाले अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका चयन कर लिया जाता है तो यह पद प्रोन्नति पर भरा जाना जाएगा। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना : समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—
1. संयुक्त सचिव (बीज)—अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन)—सदस्य
(इनमें से ज्येष्ठ विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा)
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है : पद पर नियुक्ति के प्रत्येक अवसर पर तथा इन नियमों के किसी उपबंध में संशोधन/शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

2. 1. : मुख्य बीज विश्लेषक

2. : एक* (2004)

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय
4. : 12000-375-16,500 रुपये
5. : लागू नहीं
6. : 50 वर्ष से अधिक नहीं।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य का लद्दाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला तथा चम्बा-जिले का पांगी सब-डिवीजन, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में रहने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)

7. : हाँ;
जैसाकि केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है।

8. : आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में एम.एस.सी. अथवा समतुल्य।

(ii) बीज उत्पादन/बीज विपणन/बीज प्रमाणीकरण/बीज परीक्षण/बीज क्वालिटी नियंत्रण/बीज विकास कार्यक्रमों में दस वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 :—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

9. : लागू नहीं
10. : केवल सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष।
11. : प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है : जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
12. : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों/कृषि विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/स्वशासी संगठनों/अर्ध-सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 10000-15200 रुपये के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् उसमें पांच वर्ष सेवा की है; और

(ख) कालम 8 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13. : समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

1. संयुक्त सचिव (बीज)
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन)

इनमें से ज्येष्ठ विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

14. : पद पर नियुक्ति के प्रत्येक अवसर पर तथा इन नियमों के किसी उपबंध में संशोधन/शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

3. 1. : बीज प्रौद्योगिकीविद
2. : एक* (2004)
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसन्धिवीय
4. : 12000-375-16,500 रुपए
5. : लागू नहीं
6. : 50 वर्ष से अधिक नहीं।
(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य का लद्दाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पिति जिला तथा चम्पा-जिले का पांगी सब-डिवीजन, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में रहने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि)
7. : हाँ;
जैसा कि केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है।
8. : आवश्यक :
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में एम.एससी. अथवा समतुल्य।
(ii) बीज उत्पादन/बीज विपणन/बीज प्रमाणीकरण/बीज परीक्षण/बीज क्वालिटी नियंत्रण/बीज विकास कार्यक्रमों में दस वर्ष का अनुभव।
टिप्पण 1 :—अर्हताएं, अथवा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।
टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
9. : लागू नहीं
10. : सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष।
11. : प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
12. : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :
1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/कृषि विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/स्वशासी संगठनों/अर्ध-सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी :
(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 10000-15200 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् उसमें पांच वर्ष सेवा की है; और
(ख) कालम 8 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।
प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वास्तविक पद पर प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
13. : समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—
1. संयुक्त सचिव (बीज)
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन)
(इनमें से ज्येष्ठ विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा)।
14. : पद पर नियुक्ति के प्रत्येक अवसर पर तथा इन नियमों के किसी उपबंध में संशोधन/शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

4. 1. : **ज्येष्ठ बीज विश्लेषक**

2. : एक* (2004)

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अननुसचिवीय

4. : 6500-200-10,500 रुपए

5. : लागू नहीं

6. : 50 वर्ष से अधिक नहीं।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य का लद्दाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पिति जिला तथा चम्बा-जिले का पांगी सब-डिवीजन, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में रहने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)

7. : नहीं;

सम्मिश्र पद्धति : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) तथा प्रोन्नति।

8. : **आवश्यक :**

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में बी.एस.सी. अथवा समतुल्य।

(ii) बीज उत्पादन/बीज विपणन/बीज प्रमाणीकरण/बीज परीक्षण/बीज क्वालिटी नियंत्रण/बीज विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 :—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

9. : लागू नहीं होता

10. : दो वर्ष।

11. : सम्मिश्र पद्धति प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) तथा प्रोन्नति जिनके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

12. : **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/प्रोन्नति :**

1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/कृषि विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/स्वशासी संगठनों/अर्ध-सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5500-9000 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् उसमें तीन वर्ष सेवा की है, या

(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5000-8000 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् उसमें छः वर्ष सेवा की है, और

(ख) कालम 8 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

2. राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र में 5500-9000 रु. के वेतनमान में विभागीय कनिष्ठ बीज विश्लेषक, जिसके पास कालम 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो और उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा हो, के आवेदन पर भी बाहर वाले अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति पर भरा माना जाएगा।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13. : समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—
 1. संयुक्त सचिव (बीज)—अध्यक्ष
 2. निदेशक/ उप सचिव (बीज)—सदस्य
 3. निदेशक, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र—सदस्य
14. : पद पर नियुक्ति के प्रत्येक अवसर पर तथा इन नियमों के किसी उपबंध में संशोधन/शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
-
5. 1. : कनिष्ठ बीज विश्लेषक
 2. : एक* (2004)
 * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
 3. : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित
 4. : 5500-9000 रुपये
 5. : लागू नहीं
 6. : 30 वर्ष से अधिक नहीं।
 (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अथवा अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।
 आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य का लद्दाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला तथा चम्बा-जिले का पांगी सब-डिवीजन, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में रहने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)
7. : नहीं।
 8. : आवश्यक :
 (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एससी. (कृषि) अथवा समतुल्य।
 (ii) बीज उत्पादन/बीज विपणन/बीज प्रमाणीकरण/बीज परीक्षण/बीज क्वालिटी नियंत्रण/बीज विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।
- टिप्पण 1 :—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।
- टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
9. : लागू नहीं होता।
 10. : दो वर्ष।
 11. : सीधी भर्ती द्वारा।
 12. : लागू नहीं होता।
 13. : समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—
 1. संयुक्त सचिव (बीज)—अध्यक्ष
 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन)—सदस्य
 3. निदेशक, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र—सदस्य
14. : इन नियमों के किसी भी उपबंध में संशोधन/छूट के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 31st March, 2004

G.S.R. 127.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' and 'B' posts in the National Seeds Research and Training Centre under the Department of Agriculture and Cooperation, namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the National Seeds Research and Training Centre (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualification.—The method of recruitment, to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of the post	: Director
2. Number of posts	: 1* (2004) *Subject to variation dependent on workload.
3. Classification	: General Central Services, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial
4. Scale of pay	: Rs. 14300-400-18300
5. Whether selection post or non-selection post	: Not applicable
6. Age limit for direct recruits	: Not exceeding 50 years. Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).
7. Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	: Yes. As admissible under Rule 30 of Central Civil Services Pension Rules, 1972.
8. Educational and other qualifications required for direct recruits	: Essential: (i) M.Sc. (Agriculture) from a recognised University or equivalent

(ii) Ten years experience in the field of Seed Production/Seed Marketing/Seed Certification/Seed Testing/Seed Quality Control/Seed Development Programmes.

Desirable :

Ph.D in the field of Seed Production/Seed Marketing/Seed Certification/Seed Testing/Seed Quality Control.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidate otherwise well qualified.

Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

- | | |
|--|---|
| 9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | : Not applicable |
| 10. Period of probation if any | : One Year for direct recruit |
| 11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | : Composite method Deputation (including Short Term Contract) plus promotion failing which by direct recruitment. |
| 12. In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer is to be made. | : Deputation (including Short Term Contract)/Promotion. |
1. Officers under the Central/State Governments/Union Territories/ Agricultural Universities/Recognized Research Institutions/ Autonomous Organisations/Semi Government Organisations/ Public Sector Undertakings.
- (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ Department; or
- (ii) With five years' service in the grade rendered after appointment directly on a regular basis in the scale of pay of Rs. 12000-16500 or equivalent in the parent cadre/Department; and
- (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8.
2. The Departmental Seed Technologist/ Chief Seed Analyst in the scale of pay of Rs. 12000-16500 with five years' service shall also be considered alongwith deputationists and in case he is selected the post shall be deemed to have been filled by promotion.
- The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.
- Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- Period of deputation (including Short Term Contract) including deputation (including Short Term Contract) in another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by

- deputation (including Short Term Contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.
13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition : **Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :—**
1. Joint Secretary (Seeds)
 2. Joint Secretary (Administration)
- (Senior of them will function as Chairman of the Departmental Promotion Committee).
14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment : Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion and for amending/relaxing any provision of these Rules.

2. 1. : Chief Seed Analyst

2. : One* (2004)

*Subject to variation dependent upon work load.

3. : General Central Service Group 'A', Gazetted-Non-Ministerial

4. : Rs. 12000-375-16500/-

5. : Not applicable

6. : Not exceeding 50 years.

Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).

7. : Yes. As admissible under Rule 30 of Central Civil Services Pension Rules, 1972.

8. : **Essential :**

(i) M. Sc. (Agriculture) from a recognized University or equivalent.

(ii) Ten years experience in the field of Seed Production/Seed Marketing/Seed Certification/Seed Testing/Seed Quality Control/Seed Development Programmes.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

9. : Not applicable

10. : One year for Direct Recruits only

11. : Deputation including short-term contract failing which by direct recruitment.

12. : **Deputation (including Short Term Contract)**

1. Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Agricultural Universities/recognized Research Institutions/Autonomous Organizations/Semi-Government Organisations/Public Sector Undertakings :

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 10,000-15,200 or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

Period of deputation (Including Short Term Contract) including deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.

13. : **Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :—**

1. Joint Secretary (Seeds)
2. Joint Secretary (Administration)

(Senior of them will function as Chairman of the Departmental Promotion Committee)

14. : Consultation with Union Public Service Commission on is necessary for appointment to the post on each occasion and for amending or relaxing any provision of these rules.

3. 1. : **Seed Technologist**

2. : One* (2004)

*Subject to variation dependent upon workload.

3. : General Central Services Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial

4. : Rs. 12,000-375-16,500

5. : Not applicable

6. : Not exceeding 50 years

Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar islands or Lakshdweep).

7. : Yes

As admissible under Rule 30 of Central Civil Services Pension Rules, 1972

8. : **Essential :**

- (i) M. Sc. (Agriculture) from a recognized University or equivalent;
- (ii) Ten years experience in the field of Seed Production/Seed Marketing/Seed Certification/Seed Testing/Seed Quality Control/Seed Development Programmes.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidate otherwise well qualified.

Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

9. : Not applicable

10. : One year for Direct Recruits

11. : Deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.

12. : **Deputation (Including Short Term Contract)**

1. Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Agricultural Universities/recognized research institutions/Autonomous Organizations/Semi Government Organisations/Public Sector Undertakings :

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department: or
 (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 10000-15200 or equivalent in the parent cadre/department: and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

Period of deputation (Including Short Term Contract) including deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.

13. : **Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :—**

1. Joint Secretary (Seeds)

2. Joint Secretary (Administration)

(Senior of them will function as Chairman of the Departmental Promotion Committee)

14. : Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion and for amending/relaxing any provision of these Rules.

4. 1. : **Senior Seed Analyst**

2. : One*(2004)

*Subject to variation dependent upon work load

3. : General Central Services Group 'B' Gazetted Non Ministerial

4. : Rs. 6,500-200-10,500

5. : Not applicable

6. : Not exceeding 50 years

Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

7. : No

Composite Method : Deputation (Including Short Term Contract) plus promotion.

8. : **Essential :**

(i) B. Sc. (Agriculture) from a recognized University or equivalent.

(ii) Three years experience in the field of Seed Production/Seed Marketing/Seed Certification/Seed Testing/Seed Quality Control/Seed Development Programmes.

Note 1 : The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidate otherwise well qualified.

Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

9. : Not applicable

10. : Two year

11. : Composite method Deputation (including short-term contract) plus promotion failing which by direct recruitment.
12. : **Deputation (Including Short Term Contract)/Promotion**

1. Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Agricultural Universities/Recognized research institutions/Autonomous Organizations/Semi Government Organisations/Public Sector Undertakings :

(a) (i) holding analogous post-on regular basis in the parent cadre/department; or

(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre/department; or

(iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay scale of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

2. The departmental Junior Seed Analyst in the pay scale of Rs. 5500-9000 in National Seeds Research and Training Centre possessing educational qualifications and experience laid down for direct recruits under column 8 and with three years' regular service in the grade shall also be considered along with outsiders. In case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

13. : **Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :—**

- | | |
|--|------------|
| 1. Joint Secretary (Seeds) | — Chairman |
| 2. Director/Deputy Secretary (Seeds) | — Member |
| 3. Director, National Seeds Research and Training Centre | — Member |

14. : Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion and for amending/relaxing any provision of these Rules.

5. 1. : **Junior or Seed Analyst**

2. : One* (2004)

*Subject to variation dependent upon workload.

3. : General Central Services Group 'B' Non-Gazetted

4. : Rs. 5500-9000

5. : Not applicable

6. : Not exceeding 30 years

Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed those in Assam, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar islands or Lakshadweep).

7. : No

8. : **Essential :**

- (i) B. Sc. (Agriculture) from a recognized University or equivalent;
- (ii) Two years experience in the field of Seed Production/Seed Marketing/Seed Certification/Seed Testing/Seed Quality Control/Seed Development Programmes.

Note 1 : Qualification are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidate otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

9. : Not applicable

10. : Two year

11. : Direct Recruitment

12. : Not applicable

13. : **Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :—**

- | | |
|--|------------|
| 1. Joint Secretary (Seeds) | — Chairman |
| 2. Director/Deputy Secretary (Seeds) | — Member |
| 3. Director, National Seeds Research and Training Centre | — Member |

14. : Consultation with Union Public Service Commission is necessary for amendment/Relaxation any provision of these Rules.

[F. No. 6-12/2002-S.D.I]

M. M. SINHA, Under Secy.

(पशुपालन और डेरी विभाग)

(प्रशासन-I अनुभाग)

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2004

सा.का.नि. 128.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि विभाग, उपायुक्त (दाना और चारा) भर्ती नियम, 1988 को बातों के सिवाय, अधिक्रान्त करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से यह किया गया है या करने से लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय (पशुपालन और डेरी विभाग) में उपायुक्त (दाना और चारा) पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुपालन और डेरी विभाग, उपायुक्त (दाना और चारा) भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन के तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका/उनके वेतन मान वह होगा, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. 1. पदनाम	: आयुक्त (चारा विकास)
2. पदों की संख्या	: 1 *(2004)
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	: साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अन-सचीवीय
4. वेतनमान	: रु. 12000-375-16500
5. चयन अथवा अचयन पद	: लागू नहीं होता
6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	: लागू नहीं होता
7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	: लागू नहीं होता
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	: लागू नहीं होता
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	: लागू नहीं होता
10. परीक्षा की अवधि यदि कोई हो	: लागू नहीं होता
11. भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	: प्रतिनियुक्ति जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं।
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/कृषि विश्व विद्यालयों/स्वायत्त या कानूनी निकायों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी :- (क) जो मूल काडर/ विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या जिन्होंने मूल काडर/ विभाग में 10000-15200 रु. समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हों, और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हैं:

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में डिग्री,

(2) सस्य विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री,

(3) चारा उत्पादन, घास और चारागाहों से संबंधित किसी फार्म पर चारा कृषि की योजना और संचालन या अनुसंधान विस्तार का दस वर्ष का अनुभव।

टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख का 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13. यदि विभागीय प्रोन्नति सीमित है तो उस की संरचना : लागू नहीं होता
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
आयोग से परामर्श किया जाएगा।

[फा. सं. ए. 12018/3/99-प्रशासन-1]

आर. के. शर्मा, अवर सचिव

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

(Admn. -I Section)

New Delhi, the 1st April, 2004

G.S.R. 128 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Agriculture, Deputy Commissioner (Feed and Fodder) Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Commissioner (Feed and Fodder) in the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry and Dairying), namely :—

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Department of Animal Husbandry and Dairying, Deputy Commissioner (Feed and Fodder) Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, its classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall not be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Name of the post | : Deputy Commissioner (Fodder Development) |
| 2. Number of posts | : 1* (2004) Subject to variation dependent on workload. |

3. Classification	: General Central Service, Group 'A', Gazetted and Non-Ministerial
4. Scale of pay	: Rs. 12000-375-16500
5. Whether selection or non-selection post	: Not applicable
6. Age limit for direct recruits	: Not applicable
7. Whether benefit of added years of service admissible under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	: Not applicable
8. Educational and other qualification required for Direct Recruits	: Not applicable
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	: Not applicable
10. Period of probation if any	: Not applicable
11. Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	: Deputation including short term contract
12. In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Deputation (including Short Term Contract)</p> <p>1. Officers under the Central/State Governments/ Public Sector Undertakings/ Agricultural Universities/ Autonomous or Statutory Bodies/Recognised Research Institutions :—</p> <p>(a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ Department; or</p> <p>(ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 10000-15200 or equivalent in the parent cadre/Department; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience</p> <p>(i) Degree in Agriculture of a recognized University or equivalent;</p> <p>(ii) Post Graduate Degree in Agronomy;</p> <p>(iii) Ten years' experience in planning and organizing fodder farming or research extension on a farm connected with fodder production, grasses and pastures.</p> <p>Note:— Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
13. If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	: Not applicable
14. Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted	: Consultation with the Union Public Service Commission necessary

[F. No. A-12018/3/99-Admn.-I]

R.K. SHARMA, Under Secy.

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2004

सा.का.नि. 129.—दाल श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2002 का प्रारूप, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 231 तारीख 5 जून, 2002 के अधीन,

तारीख 22 जून, 2002 के पृष्ठ सं. 1199-1243 पर प्रकाशित किया गया था और जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 8 जुलाई, 2002 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और केंद्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज ((श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दाल श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1964 और अनाज श्रेणी नियम, 1966, (काबुली चना और देशी चना/बंगाली चना), का उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दाल श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2003 है।

(2) ये उड़द (फेसियोलस मूंगो लिन), मूंग (फेसियोलस आरयूस राक्सब या फेसियोलस रेडियेटस राक्सब), मसूर (लेन्स एसकूलेन्टा मोंच या लेन्स क्यूलीनरिस मेडिक या एखम लेन्स लिन), अरहर/तूर (काजानस काजान), काबुली चना (शिसर ऐरियेटिनम लिन), चना - बंगाली चना (शिसर ऐरियेटिनम लिन), मटकी/मोट (फेसियोलस एकोनीटाइफोलियस), मटर (पाइजम आरवेन्स), राजमा (फेसियोलस वलगरिस), लोबिया (वाइगना साइनेसिस) दालों के साबुत छिलका सहित और छिलका रहित रूपों को लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) “कृषि विपणन सलाहकार” से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है ;

(ख) “प्राधिकृत पैकर” से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे दालों का इन नियमों में विहित श्रेणी मानकों और प्रक्रिया के अनुसार श्रेणीकरण और उन्हें चिन्हांकित करने के लिए प्राधिकार प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है ;

(ग) “प्राधिकार प्रमाणपत्र” से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी निकाय को दालों का श्रेणीकरण और चिन्हांकन करने और उन पर श्रेणी अभिधान चिन्ह लगाने के लिए प्राधिकृत करते हुए साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(घ) “साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम” से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाए साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 अभिप्रेत है ;

(ङ) “श्रेणी अभिधान चिन्ह” से नियम 5 में निर्दिष्ट एगमार्क अधिचिह्न अभिप्रेत है ;

(च) “अनुसूची” से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

3. श्रेणी अभिधान :— दालों की क्वालिटी को उपदर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान अनुसूची 2 से 19 के स्तंभ 1 में वर्णित रूप में होंगे।

4. क्वालिटी :— इन नियमों के प्रयोजन के लिए, दालों की क्वालिटी और साधारण अपेक्षाएं वे होंगी जो क्रमशः अनुसूची - 2, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19 के स्तंभ 2 से, 8 में तथा अनुसूची 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14 और 16 के स्तंभ 2 से 9 में प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने दी गई हैं।

5. श्रेणी अभिधान चिन्ह :— श्रेणी अभिधान चिन्ह में ऐसी डिजाइन होगी जिसमें प्राधिकार प्रमाणपत्र की संख्या, “एगमार्क” शब्द, वस्तु का नाम और अनुसूची 1 में यथावर्णित एक के सदृश श्रेणी अभिधान समाहित होंगे।

6. पैक करने का ढंग :— (1) दालों को ऐसी बोरियों/पटसन की बोरियों पोलीव्यूतित बैगो, पोलि पोचों, कपडे के बैगों या अन्य उपयुक्त ऐसी पैकेजों में पैक किया जाएगा जो स्वच्छ, मजबूत कीटों, फंफूंदी के आकीर्णन से मुक्त हों तथा पैक करने की सामग्री खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन अनुज्ञात की गई सामग्री होगी ;

(2) दालों को ऐसे आधानों में पैक किया जाएगा जो उत्पादों की स्वास्थ्यकर पोषणिक, तकनीकी और आरगनो लेप्टिक क्वालिटी की रक्षा करेंगे

(3) आधान, जिनके अंतर्गत पैकेजिंग सामग्री भी है, ऐसे पदार्थों से बनाए जाएंगे जो उनके आशयित उपयोग के लिए सुरक्षित और उपयुक्त हों वे कोई भी विषाक्त पदार्थ या अवांछनीय गंध या सुगंध उत्पाद में न लगा पाए।

(4) एक पैकेज में दाल का शुद्ध भार, भार और माप मानक (पैक युक्त वस्तुएं) नियम, 1977 के अधीन विहित उपबंध के अनुसार होगा।

(5) प्रत्येक पैकेज में एक ही किस्म की और एक ही श्रेणी अभिधान की दालें होंगी।

(6) प्रत्येक पैकेज सुरक्षित रूप से बंद और मुहर बंद किया जाएगा।

7. चिन्हांकन का ढंग :—(1) श्रेणी अभिधान चिन्ह प्रत्येक पैकेज पर कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति में साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसार चिपकाया जाएगा या मुद्रित किया जाएगा।

(2) श्रेणी अभिधान चिन्ह के अतिरिक्त प्रत्येक लेबल या पैकेज पर निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्टतः और पहचाने जाने योग्य रूप में चिन्हांकित की जाएंगी :—

- (क) पैकर का नाम और पता ;
- (ख) पैक किए जाने का स्थान ;
- (ग) पैक किए जाने की तारीख ;
- (घ) लॉट/बैच संख्या ;
- (ङ) कुल वजन ;
- (च) श्रेणी ;
- (छ) अधिकतम खुदरा कीमत (सभी करें सहित)
- (ज) ----- मास ----- वर्ष से पूर्व उत्कृष्ट।

(3) पैकेजों पर चिन्हांकन के लिए प्रयुक्त स्याही ऐसी क्वालिटी की होगी जो उत्पाद को संदूषित न करें ;

(4) प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न या व्यापार ब्रांड चिन्हांकित करेगा। परन्तु वह इस नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिन्ह द्वारा उपदर्शित क्वालिटी से भिन्न क्वालिटी उपदर्शित न करता हो।

8. प्राधिकार प्रमाणपत्र की विशेष शर्तें :—साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 3 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें इन नियमों के प्रयोजन के लिए जारी प्रत्येक प्राधिकार प्रमाणपत्र की विशेष शर्तें होंगी,

- (i) प्राधिकृत पैकर दालों के परीक्षण के लिए या तो अपने स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा या किसी अनुमोदित श्रेणीकरण प्रयोगशाला में पहुंच रखेगा ;
- (ii) परिसर पूर्ण स्वास्थ्य कारक और स्वच्छता की दशाओं से युक्त होंगे जिनमें उचित समवातन होगा तथा प्रकाश की सही व्यवस्था होगी। इस संक्रियाओं में लगे कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संसर्गज, संक्रामक या संचारी रोग से मुक्त होंगे।
- (iii) उक्त परिसरों में पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होंगी जिनका पक्का फर्श होगा तथा कृन्तक और कीटों के आकीर्णन से मुक्त होंगे।
- (iv) प्राधिकृत पैकर परीक्षण, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिन्हांकन, मुद्रांकन और अभिलेखों के अनुरक्षण के संबंध में ऐसे सभी अनुदेशों का पालन करेगा जो कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं।

अनुसूची - 1

(नियम 5 देखें)

(एगमार्क अधिचिह्न का डिजाइन)

वस्तु का नाम

श्रेणी

अनुसूची - 2

(नियम 3 और 4 देखें)

उड़द साबुत (ब्लैक ग्राम) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान

विशेष अपेक्षाएं

सहायता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)

	आर्द्रता	विजातीय पदार्थ		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत
		कार्बनिक	अकार्बनिक			
1	2	3	4	5	6	7
विशेष	10.0	0.10	कुछ नहीं	0.1	0.5	2.0
मानक	12.0	0.50	0.10	0.5	2.0	4.0
सामान्य	14.0	0.75	0.25	3.0	5.0	6.0

टिप्पण : विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य भार में 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

सामान्य अपेक्षाएं

8

उड़द साबुत

- क. दाल (फेसियोलस मूंगों लिन) के सूखे, परिपक्व बीज होंगे ;
- ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विषण्ण स्थिति में होंगे ;
- ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गंध, धब्बों से मुक्त होंगे ;
- घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे ;
- ङ. विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटोलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प०), दाना घोंधा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीन (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प०), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रूप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे ;
- च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रतिकिलोग्राम क्रमशः सौ मिलीग्राम और 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे ;
- छ. फसल संदूषकों (नियम 57क), कीटनाशी का उपयोग (नियम 65), जहरीली धातुओं (नियम 57), प्राकृतिक रूप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम 57ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बंधनों का पालन करेंगे।

अनुसूची - 3

(नियम 3 और 4 देखें)

उड़द दले हुए (छिलका सहित) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान

विशेष अपेक्षाएं

सहायता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)

आर्द्रता (अधिकतम)	विजातीय पदार्थ		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	टूटे हुए और विखण्डित दाने	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत	
	कार्बनिक	अकार्बनिक					
1	2	3	4	5	6	7	8
विशेष	10.0	0.10	कुछ नहीं	0.1	0.5	0.5	1.0
मानक	12.0	0.50	0.10	0.5	2.0	2.0	2.0
सामान्य	14.0	0.75	0.25	3.0	5.0	5.0	3.0

टिप्पण : विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य भार में 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

सामान्य अपेक्षाएं

9

उड़द दले हुए (छिलके सहित)

क. छिलके युक्त होंगे और दाल (फेसियोलस मूंगों लिन) के दले हुए बीज होंगे ;

ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विषय स्थिति में होंगे ;

ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गंध, धब्बों से मुक्त होंगे ;

घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे ;

ङ. विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटोलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प०), दाना घोंधा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीन (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प०), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकार रूप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे ;

च. मूत्रास्र और एफलाटोक्सिन प्रतिकिलोग्राम क्रमशः सौ मिलीग्राम और 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे ;

छ. फसल संदूषकों (नियम 57क), कीटनाशी के उपयोग (नियम 65), जहरीली धातुओं (नियम 57), प्राकृतिक रूप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम 57ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बंधनों का पालन करेंगे।

अनुसूची - 4

(नियम 3 और 4 देखें)

उड़द दले हुए (छिलका रहित) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान

विशेष अपेक्षाएं

सहायता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)

आर्द्रता	विजातीय पदार्थ कार्बनिक अकार्बनिक	अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	टूटे हुए और बिखण्डित दाने	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8
विशेष	10.0	0.10	कुछ नहीं	0.1	0.5	2.0	1.0
मानक	12.0	0.50	0.10	0.5	2.0	4.0	2.0
सामान्य	14.0	0.75	0.25	3.0	5.0	6.0	3.0

टिप्पण : विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य भार में 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

सामान्य अपेक्षाएं

9

उड़द दले हुए (छिलका सहित)

- क. छिलके रहित होंगे और दाल (फेसियोलस मूंगों लिन) के दले हुए बीज होंगे ;
- ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विषय स्थिति में होंगे ;
- ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गंध, धब्बों से मुक्त होंगे ;
- घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे ;
- ड. विपाक या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटोलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प०), दाना घोंधा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीन (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प०), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रूप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे ;
- च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रतिकिलोग्राम क्रमशः सौ मिलीग्राम और 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे ;
- छ. फसल संदूषकों (नियम 57-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम 65), जहरीली धातुओं (नियम 57), प्राकृतिक रूप से उसमें मिले विपाक पदार्थों (नियम 57ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बंधनों का पालन करेंगे।

अनुसूची - 5

(नियम 3 और 4 देखें)

मूंग (साबुत) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान.....

विशेष अपेक्षाएं

सह्यता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)

आर्द्रता		विजातीय पदार्थ कार्बनिक अकार्बनिक		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	घुने हुए दाने गिनती मे प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
विशेष	10.0	0.10	कुछ नहीं	0.1	0.5	2.0
मानक	12.0	0.50	0.10	0.5	2.0	4.0
सामान्य	14.0	0.75	0.25	3.0	5.0	6.0

टिप्पण : विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य भार में 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

सामान्य अपेक्षाएं

8

मूंग (साबुत)

क. दाल ग्रीन ग्राम (फेसियोलस ओर्यूस राक्सब या फेसियोलस रेडियेट्स राक्सब) के सूखे, परिपक्व बीज होंगे ;

ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विषण्ण स्थिति में होंगे ;

ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गंध, धब्बों से मुक्त होंगे ;

घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे ;

ड. विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटोलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प०), दाना घोंधा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीन (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प०), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रूप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे ;

च. मूत्रास्र और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः सौ मिलीग्राम और 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे ;

छ. फसल संदूषकों (नियम 57क), कीटनाशी का उपयोग (नियम 65), जहरीली धातुओं (नियम 57), प्राकृतिक रूप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम 57ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बंधनों का पालन करेंगे।

अनुसूची - 6

(नियम 3 और 4 देखें)

मूंग दले हुए (छिलका सहित) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान.....

विशेष अपेक्षाएं

सह्यता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)

आर्द्रता		विजातीय पदार्थ कार्बनिक अकार्बनिक		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	टूटे हुए दाने	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
विशेष	10.0	0.10	कुछ नहीं	0.1	0.5	1.0	1.0
मानक	12.0	0.50	0.10	0.5	2.0	3.0	2.0
सामान्य	14.0	0.75	0.25	3.0	5.0	6.0	3.0

टिप्पण : विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य भार में 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

सामान्य अपेक्षाएं

9

मूंग दले हुए (छिलका सहित)

- क. छिलके रहित होंगे और दाल ग्रीन ग्राम (फेसियोलस ओरयूस राक्सब या फेसियोलस रेडियेट्स राक्सब) के दले हुए बीज होंगे ;
- ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विषय स्थिति में होंगे ;
- ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गंध, धब्बों से मुक्त होंगे ;
- घ. कुन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे ;
- ङ. विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटोलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प०), दाना घोंधा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीन (रिसिनस कम्युनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प०), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकार रूप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे ;
- च. मूत्राश्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः सौ मिलीग्राम और 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे ;
- छ. फसल संदूषकों (नियम 57क), कीटनाशी का उपयोग (नियम 65), जहरीली धातुओं (नियम 57), प्राकृतिक रूप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम 57ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बंधनों का पालन करेंगे।

अनुसूची - 7

(नियम 3 और 4 देखें)

मूंग दले हुए (छिलका सहित) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान.....

विशेष अपेक्षाएं

सह्यता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)

संख्या का आचरण (किसी प्रकार का)							
आर्द्रता		विजातीय पदार्थ कार्बनिक अकार्बनिक		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	टूटे हुए और विखण्डित दाने	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
विशेष	10.0	0.10	कुछ नहीं	0.1	0.5	0.5	1.0

1	2	3	4	5	6	7	8
मानक	12.0	0.50	0.10	0.5	2.0	2.0	2.0
सामान्य	14.0	0.75	0.25	3.0	5.0	5.0	3.0

टिप्पण : विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य भार में 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

सामान्य अपेक्षाएं

9

मूंग दले हुए (छिलका सहित) :

- क. छिलके रहित होंगे और दाल ग्रीव ग्राम (फेसियोलस ओरयूस राक्सब या फेसियोलस रेडियेटस राक्सब) के दले हुए बीज होंगे ;
- ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विषण्ण स्थिति में होंगे ;
- ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गंध, धब्बों से मुक्त होंगे ;
- घ. कुन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे ;
- ङ. विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटोलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प०), दाना घोंधा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीन (रिसिनस कम्यूनिस् एल), धतूरा (धतूरा स्प०), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रूप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे ;
- च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः सौ मिलीग्राम और 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे ;
- छ. फसल संदूषकों (नियम 57क), कीटनाशी का उपयोग (नियम 65), जहरीली धातुओं (नियम 57), प्राकृतिक रूप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम 57ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बंधनों का पालन करेंगे।

अनुसूची - 8

(नियम 3 और 4 देखें)

मसूर (लेन्टिल) साबुत का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान

विशेष अपेक्षाएं

सद्गता की अधिकतम सीमाएं (प्रतिशत)

	आर्द्रता	विजातीय पदार्थ कार्बनिक अकार्बनिक	अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7
विशेष	10.0	0.10	कुछ नहीं	0.1	0.5	2.0
मानक	12.0	0.50	0.10	0.5	2.0	4.0
सामान्य	14.0	0.75	0.25	3.0	5.0	6.0

टिप्पण : विजातीय पदार्थ में, पशु-मूल के अपद्रव्य भार में 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

सामान्य अपेक्षाएं

8

मसूर साबुत

- क. दाल लेन्टिल (लैस एक्सकूलेन्टा मोंच या लैस क्यूलीमेरिस मेडिक या एरवम लैस लिन) के सूखे, परिपक्व बीज होंगे ;

- ख. ताजे, साफ, दुस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विषण्य स्थिति में होंगे ;
- ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गंध, धब्बों से मुक्त होंगे ;
- घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे ;
- ङ. विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटोलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प०), दाना घोंधा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीन (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प०), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रूप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे ;
- च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रतिकिलोग्राम क्रमशः सौ मिलीग्राम और 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे ;
- छ. फसल संदूषकों (नियम 57-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम 65), जहरीली धातुओं (नियम 57), प्राकृतिक रूप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम 57-ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बंधनों का पालन करेंगे।

अनुसूची - 9

(नियम 3 और 4 देखें)

मसूर (लेन्टिल) दले हुए (छिलका सहित) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान.....

विशेष अपेक्षाएं

सह्यता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)

आर्द्रता	विजातीय पदार्थ कार्बनिक अकार्बनिक	अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	टूटे हुए दाने	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8
विशेष	10.0	0.10	कुछ नहीं	कुछ नहीं	0.5	0.1	1.0
मानक	12.0	0.50	0.10	0.5	2.0	0.5	2.0
सामान्य	14.0	0.75	0.25	2.0	5.0	1.0	3.0

टिप्पण : विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य भार में 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

सामान्य अपेक्षाएं

9

मसूर (छिलका सहित)

- क. छिलके सहित होंगे और लेन्टिल (लैंस एक्सक्यूलेन्टा मोंच या लैंस क्यूलीमेरिस मेडिक या एरुम लैंस लिन्न) के दले हुए बीज होंगे ;
- ख. ताजे, साफ, दुस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विषण्य स्थिति में होंगे ;
- ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गंध, धब्बों से मुक्त होंगे ;
- घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे ;
- ङ. विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटोलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प०), दाना घोंधा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीन (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प०), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रूप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे ;
- च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः सौ मिलीग्राम और 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे ;
- छ. फसल संदूषकों (नियम 57-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम 65), जहरीली धातुओं (नियम 57), प्राकृतिक रूप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम 57-ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बंधनों का पालन करेंगे।

अनुसूची-10

(नियम 3 और 4 देखें)

अरहर/तुअर (रेड ग्राम) साबुत का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान

विशेष अपेक्षाएं

सहायता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)

आर्द्रता		विजातीय पदार्थ कार्बनिक अकार्बनिक		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
विशेष	10.0	0.10	कुछ नहीं	0.5	0.5	3.0
मानक	12.0	0.50	0.10	2.0	2.0	5.0
सामान्य	14.0	0.75	0.25	5.0	5.0	10.0

टिप्पण : विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य भार में 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

सामान्य अपेक्षाएं

8

अरहर/तुअर साबुत

क. दाल (गाजानस काजान) के सूखे, परिपक्व बीज होंगे;

ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विपण्य स्थिति में होंगे;

ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गंध, धब्बों से मुक्त होंगे;

घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

ङ विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटोलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प.), दाना घोंधा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीन (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा सप.), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकार रूप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;

च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः सौ मिलीग्राम और 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

छ. फसल संदूषकों (नियम 57-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम 65), जहरीली धातुओं (नियम 57), प्राकृतिक रूप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम 57-ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बंधनों का पालन करेंगे।

अनुसूची-11

(नियम 3 और 4 देखें)

अरहर/तुअर (रेड ग्राम) दली हुई (छिलका सहित) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान.....

विशेष अपेक्षाएं

सह्यता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)

1	आर्द्रता	विजातीय पदार्थ		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	टूटे हुए दाने	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत
		कार्बनिक	अकार्बनिक				
2	3	4	5	6	7	8	
विशेष	10.0	0.10	कुछ नहीं	कुछ नहीं	0.5	2.0	1.0
मानक	12.0	0.50	0.10	0.2	2.0	5.0	2.0
सामान्य	14.0	0.75	0.25	0.5	5.0	8.0	3.0

टिप्पण : विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य भार में 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

सामान्य अपेक्षाएं

9

अरहर/तुअर दली हुई (छिलका सहित)

क. छिलके सहित होंगे और दाल (काजानस काजान) के दले हुए बीज होंगे;

ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विपण्य स्थिति में होंगे;

ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गंध, धब्बों से मुक्त होंगे;

घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

ङ. विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटोलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प०), दाना बोंधा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीन (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा सप०), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रूप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;

च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः सौ मिलीग्राम और 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

छ. फसल संदूषकों (नियम 57-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम 65), जहरीली धातुओं (नियम 57), प्राकृतिक रूप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम 57-ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बंधनों का पालन करेंगे।

अनुसूची-12

(नियम 3 और 4 देखें)

काबुली चना का श्रेणी और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान

विशेष अपेक्षाएं

सहायता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)

आर्द्रता		विजातीय पदार्थ कार्बनिक अकार्बनिक		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
विशेष	10.0	0.10	कुछ नहीं	0.5	0.5	3.0
मानक	12.0	0.50	0.10	2.0	2.0	6.0
सामान्य	16.0	0.75	0.25	4.0	5.0	10.0

टिप्पण : विजातीय पदार्थ में, पशु मूल अपद्रव्य के भार में 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

सामान्य अपेक्षाएं

8

काबुली चना

क. चने (सिसर ऐरियोटिनम लिन्न) के सूखे बीज होंगे;

ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विषण्ण स्थिति में होंगे;

ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गंध, धब्बों से मुक्त होंगे;

घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

ङ. विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटोलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प.), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीन (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प.), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रूप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;

च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः सौ मिलीग्राम और 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

छ. फसल संदूषकों (नियम 57-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम 65), जहरीली धातुओं (नियम 57), प्राकृतिक रूप से उससे मिले विषाक्त पदार्थों (नियम 57ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बंधनों का पालन करेंगे।

अनुसूची-13

(नियम 3 और 4 देखें)

चना साबुत (बंगाल ग्राम) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान

विशेष अपेक्षाएं

सहायता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)

आर्द्रता		विजातीय पदार्थ कार्बनिक अकार्बनिक		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
विशेष	10.0	0.10	कुछ नहीं	0.5	0.5	3.0
मानक	12.0	0.50	0.10	2.0	2.0	6.0
सामान्य	16.0	0.75	0.25	4.0	5.0	10.0

टिप्पण : विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य भार में 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

सामान्य अपेक्षाएं

8

चना साबुत (बंगाल ग्राम)

- क. चने (शिसर ऐरियोटिनस लिन्न) के सूखे और परिपक्व बीज होंगे;
- ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विषम्य स्थिति में होंगे;
- ग. जीर्ण और मृत बीजों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गंध, धब्बों से मुक्त होंगे;
- घ. कृन्तक चिकुर और उल्लस से मुक्त होंगे;
- ङ. विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटोलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प.), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीन (रिसिनस कम्युनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प.), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रूप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;
- च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः सौ मिलीग्राम और 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;
- छ. फसल संदूषकों (नियम 57-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम 65), जहरीली धातुओं (नियम 57), प्राकृतिक रूप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम 57ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निबंधनों का पालन करेंगे।

अनुसूची-14

(नियम 3 और 4 देखें)

चना दले हुए (छिलका सहित)/ दाल चना का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान

विशेष अपेक्षाएं

सहायता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)

आर्द्रता		विजातीय पदार्थ कार्बनिक अकार्बनिक		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	टूटे हुए दाने	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
विशेष	10.0	0.10	कुछ नहीं	0.5	0.5	0.5	1.0
मानक	12.0	0.50	0.10	1.0	2.0	2.0	2.0
सामान्य	16.0	0.75	0.25	2.0	5.0	5.0	3.0

टिप्पण : विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य भार में 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

सामान्य अपेक्षाएं

चना दले हुए (छिलका सहित)/दाल चना

क. चने के (शिसर ऐरियोटिनम लिन्न) के छिलके सहित और दले हुए दाने होंगे;

ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विषय स्थिति में होंगे;

ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गंध, धब्बों से मुक्त होंगे;

घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

ङ. विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटोलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प.), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीन (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प.), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकार रूप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;

च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः सौ मिलीग्राम और 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

छ. फसल संदूषकों (नियम 57-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम 65), जहरीली धातुओं (नियम 57), प्राकृतिक रूप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम 57ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बंधनों का पालन करेंगे।

अनुसूची-15

(नियम 3 और 4 देखें)

मटकी/ मोठ (साबुत) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान

विशेष अपेक्षाएं

सहायता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)

आर्द्रता		विजातीय पदार्थ कार्बनिक अकार्बनिक		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
विशेष	10.0	0.10	कुछ नहीं	1.0	1.0	3.0
मानक	12.0	0.50	0.20	3.0	3.0	5.0
सामान्य	14.0	0.75	0.25	6.0	5.0	10.0

टिप्पण : विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य भार में 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

सामान्य अपेक्षाएं

8

मटकी/ मोठ (साबुत)

- क. दाल (फेसियोलस एकोनीटाइफोलियस) के सूखे और परिपक्व बीज होंगे;
- ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और दोस विषय स्थिति में होंगे;
- ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गंध, धब्बों से मुक्त होंगे;
- घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;
- ङ विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटोलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प.), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीन (रिंसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प.), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रूप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;
- च. मूत्राम्ल और एफ्लाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः सौ मिलीग्राम और 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;
- छ. फसल संदूषकों (नियम 57-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम 65), जहरीली धातुओं (नियम 57), प्राकृतिक रूप से उममें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम 57ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बंधनों का पालन करेंगे।

अनुसूची-16

(नियम 3 और 4 देखें)

मटकी/ मोठ दली हुई (छिलका सहित) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान

विशेष अपेक्षाएं

सहायता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)

	आर्द्रता	विजातीय पदार्थ कार्बनिक अकार्बनिक		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	टूटे हुए दाने में प्रतिशत	घुने हुए दाने गिनती
1	2	3	4	5	6	7	8
विशेष	10.0	0.10	कुछ नहीं	1.0	0.5	2.0	3.0
मानक	12.0	0.50	0.10	3.0	1.0	3.0	5.0
सामान्य	14.0	0.75	0.25	6.0	3.0	5.0	10.0

टिप्पणी : विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य भार में 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

सामान्य अपेक्षाएं

9

मटकी / मोठ दली हुई (छिलका सहित)

क. दाल (फेसियोलस एकोनीटाइफोलियस) के छिलके सहित और दले हुए बीज होंगे;

ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विषण्ण स्थिति में होंगे;

ग. जीवित और मृत कीटों, बचकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गंध, धब्बों से मुक्त होंगे;

घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

ङ विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटोलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प.), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीन (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प.), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रूप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;

च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः सौ मिलीग्राम और 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

छ. फसल संदूषकों (नियम 57-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम 65), जहरीली धातुओं (नियम 57), प्राकृतिक रूप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम 57ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बंधनों का पालन करेंगे।

अनुसूची-17

(नियम 3 और 4 देखें)

मटर (साबुत) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान

विशेष अपेक्षाएं

सह्यता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)

आर्द्रता		विजातीय पदार्थ कार्बनिक अकार्बनिक		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
विशेष	10.0	0.10	कुछ नहीं	0.5	0.5	3.0
मानक	12.0	0.50	0.10	2.0	2.0	6.0
सामान्य	16.0	0.75	0.25	4.0	5.0	10.0

टिप्पण : विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य भार में 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

सामान्य अपेक्षाएं

8

मटर (साबुत)

क. पाइजम आखेन्स के सूखे और परिपक्व बीज होंगे।

ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विषय स्थिति में होंगे;

ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गंध, धब्बों से मुक्त होंगे;

घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

ङ विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटोलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प.), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा गिथ्याग्रे एल), एरुण्ड बीन (रिसिनस कम्युनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प.), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रूप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;

च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः सौ मिलीग्राम और 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

छ. फसल संदूषकों (नियम 57-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम 65), जहरीली धातुओं (नियम 57), प्राकृतिक रूप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम 57ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बंधनों का पालन करेंगे।

अनुसूची-18

(नियम 3 और 4 देखें)

राजमा का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान

विशेष अपेक्षाएं

सह्यता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)

आर्द्रता		विजातीय पदार्थ कार्बनिक अकार्बनिक		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
विशेष	10.0	0.10	कुछ नहीं	कुछ नहीं	2.0	2.0
मानक	12.0	0.50	0.10	2.0	4.0	6.0
सामान्य	14.0	0.75	0.25	6.0	5.0	10.0

टिप्पण : विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य भार में 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

सामान्य अपेक्षाएं

8

राजमा

क. फेसियोलास बलगरिस के सूखे और परिपक्व बीज होंगे;

ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विषण्य स्थिति में होंगे;

ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गंध, धब्बों से मुक्त होंगे;

घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

ङ. विपाक या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटोलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प.), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीन (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प.), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकार रूप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;

च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः सौ मिलीग्राम और 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

छ. फसल संदूषकों (नियम 57-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम 65), जहरीली धातुओं (नियम 57), प्राकृतिक रूप से उसमें मिले विपाक पदार्थों (नियम 57ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बंधनों का पालन करेंगे।

अनुसूची-19

(नियम 3 और 4 देखें)

लोबिया का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान

विशेष अपेक्षाएं

सहायता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)

	आर्द्रता	विजातीय पदार्थ कार्बनिक अकार्बनिक		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
विशेष	10.0	0.10	कुछ नहीं	कुछ नहीं	2.0	2.0
मानक	12.0	0.50	0.10	2.0	4.0	6.0
सामान्य	14.0	0.75	0.25	6.0	5.0	10.0

टिप्पण : विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य भार में 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

सामान्य अपेक्षाएं

8

लोबिया

क. वाइगना साइनेसिस के सूखे और परिपक्व बीज होंगे;

ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विपण्य स्थिति में होंगे;

ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गंध, धब्बों से मुक्त होंगे;

घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

ङ विपाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटोलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प.), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीन (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प.), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रूप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;

च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः सौ मिलीग्राम और 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

छ. फसल संदूषकों (नियम 57-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम 65), जहरीली धातुओं (नियम 57), प्राकृतिक रूप से उसमें मिले विपाक्त पदार्थों (नियम 57ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बंधनों का पालन करेंगे।

पाद टिप्पण:— दाल श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1964 भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 1135, तारीख 15-8-1965 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

स्पष्टीकरण :—

इन नियमों के प्रयोजन के लिए,—

(1) "विजातीय पदार्थ" से खाद्यान्नों से भिन्न कोई ऐसा असंगत/बाह्य पदार्थ अभिप्रेत है जिसमें निम्नलिखित है—

(क) "अकार्बनिक पदार्थ" के अंतर्गत धातु के टुकड़े, धूल, बालू, कंकड़, पत्थर, गंदगी, रोड़ी, मिट्टी, मृत्तिका और कीचड़ के ढेले, पशु मल आदि हैं।

(ख) "कार्बनिक पदार्थ" के अंतर्गत छिलका, भूसी, अपतृण बीज और अन्य अखाद्य दाने आदि हैं।

(2) "अन्य खाद्यान्न" से, ऐसे खाद्यान्न से जो विचाराधीन है, भिन्न कोई भी खाद्यान्न अभिप्रेत है (जिनके अंतर्गत तिलहन भी हैं)।

(3) "क्षतिग्रस्त दाने" से ऐसे दाने अभिप्रेत हैं जो अंकुरित हो गए हैं या गर्मी, जीवणु, आर्द्रता या मौसम के परिणामस्वरूप आंतरिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं अर्थात् अर्गट प्रभावित दाने और मींगी कृष्णिका युक्त दाने।

(4) "टूटे हुए दाने" के अंतर्गत पूरे आकार के दलों के तीन चौथाई से कम और एक चौथाई से अधिक के टुकड़े हैं।

(5) "टूटे हुए और विखण्डित दाने" के अंतर्गत पूरे आकार के दलों की तीन चौथाई से कम के टुकड़े हैं।

(6) "उसमें घुने हुए दाने" से ऐसे दाने अभिप्रेत हैं जो दानों के लिए हानिकर कीटों द्वारा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से छिद्रित कर दिए गए हैं किंतु इनके अंतर्गत जीवाणुओं द्वारा खाए गए दाने और उनके अंडों के धब्बे वाले दाने सम्मिलित नहीं हैं।

(7) "जहरीले, विपाक्त और/या हानिकर बीज" से ऐसे बीज अभिप्रेत हैं जो यदि मौजूद हों तो स्वास्थ्य पर हानिकारक या खतरनाक प्रभाव डाल सकते हैं, उनके ओरगनोलेप्टिक लक्षणों या तकनीकी अनुपालन पर प्रभाव डाल सकते हैं जैसे धतूरा (डी, फास्टूओसा

लिन और डी. स्ट्रामोनियम लिन), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा) गिथागो एल, मचाई लैलियम रेप्यूलेनम लिन), आकरा (विशिया स्पेशीज)।

[फा. सं. 18011/2/2001-एम. II]

पी. के. अग्रवाल, संयुक्त सचिव (कृषि विपणन)

(Department of Agriculture and Co-operation)

New Delhi, the 7th April, 2004

G.S.R 129.—Whereas the draft of Pulses Grading and Marking Rules, 2002 were published, as required by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) under the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture number GSR 231 dated the 5th June, 2002, appearing on pages 1199-1243 dated the 22nd June, 2002, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public.

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 8th July, 2002;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marketing) Act, 1937 (1 of 1937) and in supersession of the Pulses Grading and Marking Rules, 1964 and Cereals Grading Rules, 1966, (Kabuli gram and Deshi gram/Bengal gram), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules namely:—

1. Short title, application and commencement.—(1) These rules may be called the Pulses Grading and Marking, 2003.

(2) They shall apply to whole, husked and unhusked form of pulses Urd (*Phaseolus mungo* Linn.), Moong (*Phaseolus aureus* Roxb. or *Phaseolus radiatus* Roxb.) Masoor (*Lens esculenta* Moench or *Lens culinaris* Medik. or *Ervum lens* Linn.), Arhar/Tur (*Cajanus cajan*), Kabuli chana (*Cicer arietinum* Linn.), Chana-Bengal gram (*Cicer arietinum* Linn.), Matki/Moth (*Phaseolus acontifolius*), Peas (*Pisum arvense*), Rajma (*Phaseolus vulgaris*), Lobia (*Vigna sinensis*).

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government India;

(b) "Authorised packer" means a person or a body of person who has been granted a certificate of authorisation to grade and mark the pulses in accordance with the grade standards and procedure prescribed under these rules;

(c) "Certificate of Authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorising a person or a body of persons to grade and mark pulses with the grade designation mark;

(d) "General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988 made under Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);

(e) "Grade designation mark" means the Agmark Insignia referred to in rule 5;

(f) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

3. Grade designations.—The Grade designations to indicate the quality of pulses shall be as set out in column I of Schedules II to XIX.

4. Quality.—For the purpose of these rules, the quality and general requirements of pulses shall be as such given against each grade designation from column 2 to 8 of Schedules-II, V, VIII, X, XII, XIII, XV, XVII, XVIII, XIX and from column 2 to 9 of Schedule III, IV, VI, VII, IX, XI, XIV and XVI respectively.

5. Grade designation mark.—The grade designation mark shall consist of the design incorporating the certificate of authorisation number, the word "AGMARK", name of the commodity and grade designation resembling the one as set out in schedule -I.

6. Method of packing.—(1) Pulses shall be packed in gunny bags/jute bags, poly woven bags, poly pouches, cloth bags or other suitable packages which shall be clean, sound, free from insect, fungal infestation and the packing material shall be as permitted under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955.

(2) Pulses shall be packed in containers which will safeguard the hygienic, nutritional, technological and organoleptic qualities of the products.

(3) The containers, including packaging material, shall be made of substances which are safe and suitable for their intended use. They should not impart any toxic substance or undesirable odour or flavour to the product.

(4) The net weight of the pulses in a package shall be as per the provision prescribed under the Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977.

(5) Each package shall contain pulses of the same type and of the same grade designation.

(6) Each package shall be securely closed and sealed.

7. **Method of Marking.**—(1) The grade designation mark shall be securely affixed to or printed on each package in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him on his behalf in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988.

(2) In addition to the grade designation mark, following particulars shall be clearly and indelibly marked on each label package :—

(a) Name and address of the packer;

(b) Place of packing;

(c) Date of packing;

(d) Lot/batch number;

(e) Net weight;

(f) Grade;

(g) Maximum retail Price (Inclusive of all taxes);

(h) Best before.....month.....year.

(3) The ink used for marking on packages shall be of such quality which may not contaminate the product.

(4) The authorised packer, may, after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him on his behalf, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages provided that the same do not indicate quality other than that indicating by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.

8. **Special condition of certificate of authorisation.**—In addition to the conditions specified under the sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, 1988, the following shall be the special conditions of every certificate of authorisation issued for the purpose of these rules :—

(i) The authorised packer shall either set up his own laboratory or have access to an approved grading laboratory for testing of Pulses.

(ii) The premises shall be maintained in perfect hygienic and sanitary conditions with proper ventilations and well lighted arrangement. The personnels engaged in these operations shall be in sound health and free from any infectious, contagious or communicable diseases.

(iii) The premises shall have adequate storage facilities with pucca floor and free from rodent and insect infestation.

(iv) The authorised packer shall observe all instructions regarding testing, grading, packing, marking, sealing and maintenance of records which may be issued from time to time by the Agricultural Marketing Adviser or any other officer authorised by him in this behalf.

SCHEDULE-I

(See rule 5)

(Design of Agmark INSIGNIA)

NAME OF COMMODITY-----

GRADE-----

SCHEDULE-II

(See rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of Urd whole (Black gram)

Grade Designation	Definition of quality					
	Special Requirements					
	Maximum limits of tolerance (per cent by weight)					
	Moisture	Foreign matter		Other edible grains	Damaged grains	Weevilled grains per cent by count
		organic	Inorganic			
1	2	3	4	5	6	7
Special	10.0	0.10	Nil	0.1	0.5	2.0
Standard	12.0	0.50	0.10	0.5	2.0	4.0
General	14.0	0.75	0.25	3.0	5.0	6.0

Note.—In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 per cent by weight.

General Requirements

8

Urd whole shall—

- be the dried mature seeds of Pulse (*Phaseolus mungo* Linn.);
- be sweet, clean, wholesome, uniform in size, shape, colour and in sound merchantable conditions;
- be free from living and dead insects, fungus infestation, added coloring, matter moulds, obnoxious smell, discolouration;
- be free from rodent hair and excreta;
- be free from toxic or noxious seeds viz. *Crotalaria* (*Crotalaria* spp.), Corn cockle (*Agrostemma githago* L.), Castro bean (*Ricinus communis* L.), Jimson weed (*Datura* spp.), *Argemone mexicana*, Khesari and other seeds that are commonly recognized as harmful to health;
- Uric acid and Aflatoxin shall not exceed 100 milligrams and 30 micrograms per kilogram respectively;
- Comply with the restrictions in regard to poisonous metals (rule-57), crop contaminants (rule 57-A), naturally occurring toxic substances (rule 57-B), use of insecticides (rule-65), and other provisions prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, as amended from time to time.

SCHEDULE-III

(See rule 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of Urd split (husked)

Grade Designation	Definition of quality						
	Special Requirements						
	Maximum limits of tolerance (per cent by weight)						
	Moisture	Foreign matter		other edible grains	Damaged grains	Broken and Fragments grains	Weevilled grains per cent by count
	(Maximum)	Organic	Inorganic				
1	2	3	4	5	6	7	8
Special	10.0	0.10	Nil	0.1	0.5	0.5	1.0
Standard	12.0	0.50	0.10	0.5	2.0	2.0	2.0
General	14.0	0.75	0.25	3.0	5.0	5.0	3.0

Note.—In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 per cent by weight.

General Requirements

Urd Split (husked) shall—

- (a) consist of husked and split seeds of Pulse (*Phaseolus mungo* Linn.);
- (b) be sweet, clean, wholesome, uniform in size, shape, colour and in sound merchantable conditions;
- (c) be free from living and dead insects, fungus infestation, added colouring, matter moulds, obnoxious smell, discolouration;
- (d) be free from rodent hair and excreta;
- (e) be free from toxic or noxious seeds viz. *Crotalaria* (*Crotalaria* spp.), Corn cockle (*Agrostemma githago* L.), Castro bean (*Ricinus communis* L.), Jimson weed (*Datura* spp.), *Argemone mexicana*, Khesari and other seeds that are commonly recognized as harmful to health;
- (f) Uric acid and Aflatoxin shall not exceed 100 milligrams and 30 micrograms per kilogram respectively;
- (g) Comply with the restrictions in regard to poisonous metals (rule-57), crop contaminants (rule 57-A), naturally occurring toxic substances (rule 57-B), use of insecticides (rule-65), and other provisions prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, as amended from time to time.

SCHEDULE-IV

(See rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of Urd split (unhusked)

Grade Designation	Definition of quality						
	Special Requirements						
	Maximum limits of tolerance (per cent by weight)						
	Moisture	Foreign matter		Other edible grains	Damaged grains	Broken and Fragments grains	Wetwilled grains per cent by count
		Organic	Inorganic				
1	2	3	4	5	6	7	8
Special	10.0	0.10	Nil	0.1	0.5	2.0	1.0
Standard	12.0	0.50	0.10	0.5	2.0	4.0	2.0
General	14.0	0.75	0.25	3.0	5.0	6.0	3.0

Note.—In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 per cent by weight.

General Requirements

Urd Split (unhusked) shall—

- (a) consist of unhusked and split seeds of Pulse (*Phaseolus mungo* Linn.);
- (b) be sweet, clean, wholesome, uniform in size, shape, colour and in sound merchantable conditions;
- (c) be free from living and dead insects, fungus infestation, added colouring, matter moulds, obnoxious smell, discolouration;
- (d) be free from rodent hair and excreta;
- (e) be free from toxic or noxious seeds viz. *Crotalaria* (*Crotalaria* spp.), Corn cockle (*Agrostemma githago* L.), Castro bean (*Ricinus communis* L.), Jimson weed (*Datura* spp.), *Argemone mexicana*, Khesari and other seeds that are commonly recognized as harmful to health;

- (f) Uric acid and Aflatoxin shall not exceed 100 milligrams and 30 micrograms per kilogram respectively;
- (g) Comply with the restrictions in regard to poisonous metals (rule-57), crop contaminants (rule 57-A), naturally occurring toxic substances (rule 57-B), use of insecticides (rule-65), and other provisions prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, as amended from time to time.

SCHEDULE-V

(See rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of Moong (whole)

Grade Designation	Definition of quality					
	Special Requirements					
	Maximum limits of tolerance (per cent by weight)					
	Moisture	Foreign matter		Other edible grains	Damaged grains	Weevilled grains per cent by count
		Organic	Inorganic			
1	2	3	4	5	6	7
Special	10.0	0.10	Nil	0.1	0.5	2.0
Standard	12.0	0.50	0.10	0.5	2.5	4.0
General	14.0	0.75	0.25	3.0	5.0	6.0

Note.—In foreign matter, the impurity of animal origin shall not be more than 0.10 percent by weight.

General requirements

8

Moong whole shall—

- (a) be the dried mature seeds of Pulse green gram (*Phaseolus aureus* Roxb. or *Phaseolus radiatus* Roxb.);
- (b) be sweet, clean, wholesome, uniform in size, shape, colour and in sound merchantable condition;
- (c) be free from living and dead insects, fungus infestation, added colouring matter, moulds, obnoxious smell, discolouration;
- (d) be free from rodent hair and excreta;
- (e) be free from toxic or noxious seeds viz. *Crotalaria* (*Crotalaria* spp.), Corn cockle (*Agrostemma githago* L.), Castro bean (*Ricinus communis* L.), Jimson weed (*Datura* spp.), *Argemone mexicana*, Khesar and other seeds that are commonly recognized as harmful to health;
- (f) Uric acid and Aflatoxin shall not exceed 100 milligrams and 30 micrograms per kilogram respectively;
- (g) Comply with the restrictions in regard to poisonous metals (rule-57), crop contaminants (rule 57-A), naturally occurring toxic substances (rule 57-B), use of insecticides (rule-65), and other provisions prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, as amended from time to time.

SCHEDULE-VI

(See rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of Moong split (husked)

Grade Designation	Definition of quality						
	Special Requirements						
	Maximum limits of tolerance (per cent by weight)						
	Moisture	Foreign matter		Other edible grains	Damaged grains	Broken grains	Weevilled grains per cent by count
		Organic	Inorganic				
1	2	3	4	5	6	7	8
Special	10.0	0.10	Nil	0.1	0.5	1.0	1.0
Standard	12.0	0.50	0.10	0.5	2.0	3.0	2.0
General	14.0	0.75	0.25	3.0	5.0	6.0	3.0

Note.—In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 per cent by weight.

General Requirements

9

Moong split (husked) shall—

- consist of husked and split seeds of Pulse green gram (*Phaseolus aureus* Roxb. or *Phaseolus radiatus* Roxb.)
- be sweet, clean, wholesome, uniform in size, shape, colour and in sound merchantable condition;
- be free from living and dead insects, fungus infestation, added colouring matter, moulds, obnoxious smell, discolouration;
- be free from rodent hair and excreta;
- be free from toxic or noxious seeds viz. *Crotalaria* (*Crotalaria* spp.), Corn cockle (*Agrostemma githago* L.), Castor bean (*Ricinus communis* L.), Jimson weed (*Datura* spp.), *Argemone mexicana*, Khesari and other seeds that are commonly recognized as harmful to health;
- Uric acid and Aflatoxin shall not exceed 100 milligrams and 30 micrograms per kilogram respectively;
- Comply with the restrictions in regard to poisonous metals (rule-57), crop contaminants (rule 57-A), naturally occurring toxic substances (rule 57-B), use of insecticides (rule-65), and other provisions prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, as amended from time to time.

SCHEDULE-VII

(See rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of Moong split (unhusked)

Grade Designation	Definition of quality						
	Special Requirements						
	Maximum limits of tolerance (per cent by weight)						
	Moisture	Foreign matter		Other edible grains	Damaged grains	Broken and Fragments grains	Weevilled grains per cent by count
		Organic	Inorganic				
1	2	3	4	5	6	7	8
Special	10.0	0.10	Nil	0.1	0.5	0.5	1.0
Standard	12.0	0.50	0.10	0.5	2.0	2.0	2.0
General	14.0	0.75	0.25	3.0	5.0	5.0	3.0

Note.—In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 per cent by weight.

General Requirements

9

Moong split (unhusked) shall—

- (a) consist of unhusked and split seeds of Pulse green gram (*Phaseolus aureus* Roxb. or *Phaseolus radiatus* Roxb.);
- (b) be sweet, clean, wholesome, uniform in size, shape, colour and in sound merchantable condition;
- (c) be free from living and dead insects, fungus infestation, added colouring matter, moulds, obnoxious smell, discolouration;
- (d) be free from rodent hair and excreta;
- (e) be free from toxic or noxious seeds viz. *Crotalaria* (*Crotalaria* spp.), Corn cockle (*Agrostemma githago* L.), Castor bean (*Ricinus communis* L.), Jimson weed (*Datura* spp.), *Argemone mexicana*, Khesari and other seeds that are commonly recognized as harmful to health;
- (f) Uric acid and Aflatoxin shall not exceed 100 milligrams and 30 micrograms per kilogram respectively;
- (g) Comply with the restrictions in regard to poisonous metals (rule-57), crop contaminants (rule 57-A), naturally occurring toxic substances (rule 57-B), use of insecticides (rule-65), and other provisions prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, as amended from time to time.

SCHEDULE-VIII

(See rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of Masoor (Lentil) whole

Grade Designation	Definition of quality					
	Special requirements					
	Maximum limits of tolerance (per cent by weight)					
	Moisture	Foreign matter		other edible grains	Damaged grains	Weevilled grains per cent by count
		organic	Inorganic			
1	2	3	4	5	6	7
Special	10.0	0.10	Nil	0.1	0.5	2.0
Standard	12.0	0.50	0.10	0.5	2.0	4.0
General	14.0	0.75	0.25	3.0	5.0	6.0

Note.—In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 per cent by weight.

General requirements

8

Masoor whole shall—

- (a) be the dried and mature seeds of Pulse lentil (*Lens exculenta* Moench or *Lens culinaris* Medik or *Ervum Lens* Linn.);
- (b) be sweet, clear, wholesome, uniform in size, shape, colour and in sound merchantable condition;
- (c) be free from living and dead insects, fungus infestation, added colouring matter, moulds, obnoxious smell, discolouration;
- (d) be free from rodent hair and excreta;
- (e) be free from toxic or noxious seeds viz. *Crotalaria* (*Crotalaria* spp.), Corn cockle (*Agrostemma githago* L.), Castor bean (*Ricinus communis* L.), Jimson weed (*Datura* spp.), *Argemone mexicana*, Khesari and other seeds that are commonly recognized as harmful to health;
- (f) Uric acid and Aflatoxin shall not exceed 100 milligrams and 30 micrograms per kilogram respectively;
- (g) Comply with the restrictions in regard to poisonous metals (rule-57), crop contaminants (rule 57-A), naturally occurring toxic substances (rule 57-B), use of insecticides (rule-65), and other provisions prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, as amended from time to time.

SCHEDULE-IX

(See rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of Masoor (Lentil) split (husked)

Grade Designation	Definition of quality						
	Special requirements						
	Maximum limits of tolerance (per cent by weight)						
	Moisture	Foreign matter		other grains	Damaged grains	Broken grains	Weevilled grains per cent by count
		organic	Inorganic				
I	2	3	4	5	6	7	8
Special	10.0	0.10	Nil	Nil	0.5	0.1	1.0
Standard	12.0	0.50	0.10	0.5	2.0	0.5	2.0
General	14.0	0.75	0.25	2.0	5.0	1.0	3.0

Note.—In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 percent by weight.

General Requirements

9

Masoor Split (husked) shall—

- consist of husked and split seeds of lentil (*Lens esculenta* Moench or *Lens culinaris* Medik or *Ervum Lens* Linn.);
- be sweet, clear, wholesome, uniform in size, shape, colour and in sound merchantable conditions;
- be free from living and dead insects, fungus infestation, added colouring, matter, moulds, obnoxious smell, discolouration;
- be free from rodent hair and excreta;
- be free from toxic or noxious seeds viz. *Crotalaria* (*Crotalaria* spp.), Corn cockle (*Agrostemma githago* L.), Castor bean (*Ricinus communis* L.), Jimson weed (*Datura* spp.), *Argemone mexicana*, Khesari and other seeds that are commonly recognized as harmful to health;
- Uric acid and Aflatoxin shall not exceed 100 milligrams and 30 micrograms per kilogram respectively;
- Comply with the restrictions in regard to poisonous metals (rule-57), crop contaminants (rule 57-A), naturally occurring toxic substances (rule 57-B), use of insecticides (rule-65), and other provisions prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, as amended from time to time.

SCHEDULE-X

(See rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of Arhar/Tur (Red gram) whole

Grade Designation	Definition of quality					
	Special requirements					
	Maximum limits of tolerance (per cent by weight)					
	Moisture	Foreign matter		other edible grains	Damaged grains	Weevilled grains per cent by count
		Organic	Inorganic			
1	2	3	4	5	6	7
Special	10.0	0.10	Nil	0.5	0.5	3.0
Standard	12.0	0.50	0.10	2.0	2.0	5.0
General	14.0	0.75	0.25	5.0	5.0	10.0

Note.—In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 per cent by weight.

General Requirements

8

Arhar/Tur whole shall—

- (a) be the dried and mature seeds of Pulse (*Cajanus cajan*);
- (b) be sweet, clear, wholesome, uniform in size, shape, colour, and in sound merchantable condition;
- (c) be free from living and dead insects, fungus infestation, added colouring, matter, moulds, obnoxious smell, discolouration;
- (d) be free from rodent hair and excreta;
- (e) be free from toxic or noxious seeds viz. *Crotalaria* (*Crotalaria* spp.), Corn cockle (*Agrostemma githago* L.), Castor bean (*Ricinus communis* L.), Jimson weed (*Datura* spp.), *Argemone mexicana*, Khesari and other seeds that are commonly recognized as harmful to health;
- (f) Uric acid and Aflatoxin shall not exceed 100 milligrams and 30 micrograms per kilogram respectively;
- (g) Comply with the restrictions in regard to poisonous metals (rule-57), crop contaminants (rule 57-A), naturally occurring toxic substances (rule 57-B), use of insecticides (rule-65), and other provisions prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, as amended from time to time.

SCHEDULE-XI

(See rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of Arhar/Tur (Red gram) split (husked)

Grade designation	Definition of quality						
	Special requirements						
	Maximum limits of tolerance (per cent by weight)						
	Moisture	Foreign matter		Other edible grains	Damaged grains	Broken grains	Weevilled grains, per cent by count
		Organic	Inorganic				
1	2	3	4	5	6	7	8
Special	10.0	0.10	Nil	Nil	0.5	2.0	1.0
Standard	12.0	0.50	0.10	0.2	2.0	5.0	2.0
General	14.0	0.75	0.25	0.5	5.0	8.0	3.0

Note.—In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 per cent by weight.

General Requirements

9

Arhar/Tur Split (husked) shall—

- (a) consist of husked and split seeds of Pulse (*Cajanus cajan*);
- (b) be sweet, clean, wholesome, uniform in size, shape, colour and in sound merchantable condition;
- (c) be free from living and dead insects, fungus infestation, added colouring matter, moulds, obnoxious smell, discolouration;
- (d) be free from rodent hair and excreta;
- (e) be free from toxic or noxious seeds viz. *Crotalaria* (*Crotalaria* spp.), Corn cockle (*Agrostemma githago* L.), Castor bean (*Ricinus communis* L.), Jimson weed (*Datura* spp.), *Argemone mexicana*, Khesari and other seeds that are commonly recognized as harmful to health;
- (f) Uric acid and Aflatoxin shall not exceed 100 milligrams and 30 micrograms per kilogram respectively;
- (g) Comply with the restrictions in regard to poisonous metals (rule-57), crop contaminants (rule 57-A), naturally occurring toxic substances (rule 57-B), use of insecticides (rule 65), and other provisions prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, as amended from time to time.

SCHEDULE-XII

(See rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of Kabuli Chana

Grade designation	Definition of quality					
	Special requirements					
	Maximum limits of tolerance (per cent by weight)					
	Moisture	Foreign matter		Other edible grains	Damaged grains	Weevilled grains, per cent by count
		Organic	Inorganic			
I	2	3	4	5	6	7
Special	10.0	0.10	Nil	0.5	0.5	3.0
Standard	12.0	0.50	0.10	2.0	2.0	6.0
General	16.0	0.75	0.25	4.0	5.0	10.0

Note.—In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 per cent by weight.

General Requirements

8

Kabuli chana shall—

- be the dried grains of gram (*Cicer arietinum* Linn.);
- be sweet, clear, wholesome, uniform in size, shape, colour and in sound merchantable conditions;
- be free from living and dead insects, fungus infestation, added colouring, matter, moulds, obnoxious smell, discolouration;
- be free from rodent hair and excreta;
- be free from toxic or noxious seeds viz. *Crotalaria* (*Crotalaria* spp.), Corn cockle (*Agrostemma githago* L.), Castor bean (*Ricinus communis* L.), Jimson weed (*Datura* spp.), *Argemone mexicana*, Khesari and other seeds that are commonly recognized as harmful to health;
- Uric acid and Aflatoxin shall not exceed 100 milligrams and 30 micrograms per kilogram respectively;
- Comply with the restrictions in regard to poisonous metals (rule-57), crop contaminants (rule 57-A), naturally occurring toxic substances (rule 57-B), use of insecticides (rule-65), and other provisions prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, as amended from time to time.

SCHEDULE-XIII

(See rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of Chana whole (Bengal gram)

Grade designation	Definition of quality					
	Special requirements					
	Maximum limits of tolerance (per cent by weight)					
	Moisture	Foreign matter		Other edible grains	Damaged grains	Weevilled grains, per cent by count
		Organic	Inorganic			
1	2	3	4	5	6	7
Special	10.0	0.10	Nil	0.5	0.5	3.0
Standard	12.0	0.50	0.10	2.0	2.0	6.0
General	16.0	0.75	0.25	4.0	5.0	10.0

Note.—In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 per cent by weight.

General Requirements

8

Chana whole (Bengal gram) shall—

- (a) be the dried and mature grains of gram (*Cicer arietinum* Linn.);
- (b) be sweet, clear, wholesome, uniform in size, shape, colour and in sound merchantable condition;
- (c) be free from living and dead insects, fungus infestation, added colouring matter, moulds, obnoxious smell, discolouration;
- (d) be free from rodent hair and excreta;
- (e) be free from toxic or noxious seeds viz. *Crotalaria* (*Crotalaria* spp.), Corn cockle (*Agrostemma githago* L.), Castor bean (*Ricinus communis* L.), Jimson weed (*Datura* spp.), *Argemone mexicana*, Khesari and other seeds that are commonly recognized as harmful to health;
- (f) Uric acid and Aflatoxin shall not exceed 100 milligrams and 30 micrograms per kilogram respectively;
- (g) Comply with the restrictions in regard to poisonous metals (rule-57), crop contaminants (rule 57-A), naturally occurring toxic substances (rule 57-B), use of insecticides (rule-65), and other provisions prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, as amended from time to time.

SCHEDULE-XIV

(See rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of Chana split (husked/Dal Chana)

Grade Designation	Defintion of quality						
	Special requirements						
	Maximum limits of tolerance (per cent by weight)						
	Moisture	Foreign matter		other edible grains	Damaged grains	Broken grains	Weevilled grains, per cent by count
		Organic	Inorganic				
1	2	3	4	5	6	7	8
Special	10.0	0.10	Nil	0.5	0.5	0.5	1.0
Standard	12.0	0.50	0.10	1.0	2.0	2.0	2.0
General	16.0	0.75	0.25	2.0	5.0	5.0	3.0

Note.—In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 percent by weight.

General Requirements

9

Chana split (husked) Dal Chana shall—

- (a) consist of husked and split grains of gram (*Cicer arietinum* Linn.);
- (b) be sweet, clear, wholesome, uniform in size, shape, colour and in sound merchantable condition;
- (c) be free from living and dead insects, fungus infestation, added colouring matter, moulds, obnoxious smell, discolouration;
- (d) be free from rodent hair and excreta;
- (e) be free from toxic or noxious seeds viz. *Crotalaria* (*Crotalaria* spp.), Corn cockle (*Agrostemma githago* L.), Castor bean (*Ricinus communis* L.), Jimson weed (*Datura* spp.), *Argemone mexicana*, Khesari and other seeds that are commonly recognized as harmful to health;
- (f) Uric acid and Aflatoxin shall not exceed 100 milligrams and 30 micrograms per kilogram respectively;
- (g) Comply with the restrictions in regard to poisonous metals (rule-57), crop contaminants (rule 57-A), naturally occurring toxic substances (rule 57-B), use of insecticides (rule-65), and other provisions prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, as amended from time to time.

SCHEDULE-XV

(See rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of Matki/Moth (whole)

Grade Designation	Definition of quality					
	Special requirements					
	Maximum limits of tolerance (per cent by weight)					
	Moisture	Foreign matter		other edible grains	Damaged grains	Weevilled grains, per cent by count
		Organic	Inorganic			
1	2	3	4	5	6	7
Special	10.0	0.10	Nil	1.0	1.0	3.0
Standard	12.0	0.50	0.10	3.0	3.0	5.0
General	14.0	0.75	0.25	6.0	5.0	10.0

Note.—In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 per cent by weight.

General Requirements

8

Matki/Moth (whole) shall—

- be the dried and mature seeds of Pulse (*Phaseolus aconitifolius*);
- be sweet, clear, wholesome, uniform in size, shape, colour and in sound merchantable condition;
- be free from living and dead insects, fungus infestation, added colouring, matter, moulds, obnoxious smell, discolouration;
- be free from rodent hair and excreta;
- be free from toxic or noxious seeds viz. *Crotolaria* (*Crotolaria* spp.), Corn cockle (*Agrostemma githago* L.), Castor bean (*Ricinus communis* L.), Jimson weed (*Datura* spp.), *Argemone mexicana*, Khesari and other seeds that are commonly recognized as harmful to health;
- Uric acid and Aflatoxin shall not exceed 100 milligrams and 30 micrograms per kilogram respectively;
- Comply with the restrictions in regard to poisonous metals (rule-57), crop contaminants (rule 57-A), naturally occurring toxic substances (rule 57-B), use of insecticides (rule-65), and other provisions prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, as amended from time to time.

SCHEDULE-XVI

(See rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of Matki/Moth split (husked)

Grade Designation	Definition of quality						
	Special requirements						
	Maximum limits of tolerance (per cent by weight)						
	Moisture	Foreign matter		Other edible grains	Damaged grains	Broken grains	Weevilled grains, per cent by count
		Organic	Inorganic				
1	2	3	4	5	6	7	8
Special	10.0	0.10	Nil	1.0	0.5	2.0	3.0
Standard	12.0	0.50	0.10	3.0	1.0	3.0	5.0
General	14.0	0.75	0.25	6.0	3.0	5.0	10.0

Note.—In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 per cent by weight.

General Requirements

9

Matki/Moth Split (husked) shall—

- (a) consist of husked and split seeds of Pulse (*Phaseolus aconitifolius*);
- (b) be sweet, clear, wholesome, uniform in size, shape, colour and in sound merchantable condition;
- (c) be free from living and dead insects, fungus infestation, added colouring, matter, moulds, obnoxious smell, discolouration;
- (d) be free from rodent hair and excreta;
- (e) be free from toxic or noxious seeds viz. *Crotolaria* (*Crotolaria* spp.), Corn cockle (*Agrostemma githago* L.), Castor bean (*Ricinus communis* L.), Jimson weed (*Datura* spp.), *Argemone mexicana*, Khesari and other seeds that are commonly recognized as harmful to health;
- (f) Uric acid and Aflatoxin shall not exceed 100 milligrams and 30 micrograms per kilogram respectively;
- (g) Comply with the restrictions in regard to poisonous metals (rule-57), crop contaminants (rule 57-A), naturally occurring toxic substances (rule 57-B), use of insecticides (rule-65), and other provisions prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, as amended from time to time.

SCHEDULE-XVII

(See rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of Peas (Whole)

Grade Designation	Definition of quality					
	Special requirements					
	Maximum limits of tolerance (per cent by weight)					
	Moisture	Foreign matter		other edible grains	Damaged grains	Weevilled grains, per cent by count
		Organic	Inorganic			
1	2	3	4	5	6	7
Special	10.0	0.10	Nil	0.5	0.5	3.0
Standard	12.0	0.50	0.10	2.0	2.0	6.0
General	16.0	0.75	0.25	4.0	5.0	10.0

Note.—In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 percent by weight.

General Requirements

8

Peas (Whole) shall—

- (a) be the dried and mature seeds of *Pisum arvense*;
- (b) be sweet, clear, wholesome, uniform in size, shape, colour and in sound merchantable condition;
- (c) be free from living and dead insects, fungus infestation, added colouring, matter, moulds, obnoxious smell, discolouration;
- (d) be free from rodent hair and excreta;
- (e) be free from toxic or noxious seeds viz. *Crotolaria* (*Crotolaria* spp.), Corn cockle (*Agrostemma githago* L.), Castor bean (*Ricinus communis* L.), Jimson weed (*Datura* spp.), *Argemone mexicana*, Khesari and other seeds that are commonly recognized as harmful to health;
- (f) Uric acid and Aflatoxin shall not exceed 100 milligrams and 30 micrograms per kilogram respectively;
- (g) Comply with the restrictions in regard to poisonous metals (rule-57), crop contaminants (rule 57-A), naturally occurring toxic substances (rule 57-B), use of insecticides (rule-65), and other provisions prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, as amended from time to time.

SCHEDULE-XVIII

(See rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of Rajma

Grade designation	Definition of quality					
	Special requirements					
	Maximum limits of tolerance (per cent by weight)					
	Moisture	Foreign matter		other edible grains	Damaged grains	Weevilled grains, per cent by count
		organic	Inorganic			
1	2	3	4	5	6	7
Special	10.0	0.10	Nil	Nil	2.0	2.0
Standard	12.0	0.50	0.10	2.0	4.0	6.0
General	14.0	0.75	0.25	6.0	5.0	10.0

Note.—In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 percent by weight.

General Requirements

8

Rajma shall—

- be the dried and mature seeds of *Phaseolus vulgaris*;
- be sweet, clean, wholesome, uniform in size, shape, colour and in sound merchantable condition;
- be free from living and dead insects, fungus infestation, added colouring, matter, moulds, obnoxious smell, discolouration;
- be free from rodent hair and excreta;
- be free from toxic or noxious seeds viz. *Crotalaria* (*Crotalaria* spp.), Corn cockle (*Agrostemma githago* L.), Castor bean (*Ricinus communis* L.), Jimson weed (*Datura* spp.), *Argemone mexicana*, Khesari and other seeds that are commonly recognized as harmful to health;
- Uric acid and Aflatoxin shall not exceed 100 milligrams and 30 micrograms per kilogram respectively;
- Comply with the restrictions in regard to poisonous metals (rule-57), crop contaminants (rule 57-A), naturally occurring toxic substances (rule 57-B), use of insecticides (rule-65), and other provisions prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, as amended from time to time.

SCHEDULE-XIX

(See rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of Lobia

Grade designation	Definition of quality					
	Special requirements					
	Maximum limits of tolerance (per cent by weight)					
	Moisture	Foreign matter		Other edible grains	Damaged grains	Weevilled grains, per cent by count
		Organic	Inorganic			
1	2	3	4	5	6	7
Special	10.0	0.10	Nil	Nil	2.0	2.0
Standard	12.0	0.50	0.10	2.0	4.0	6.0
General	14.0	0.75	0.25	6.0	5.0	10.0

Note.—In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 per cent by weight.

General Requirements

8

Lobia shall—

- (a) be the dried and mature seeds of *Vigna sinensis*;
- (b) be sweet, clear, wholesome, uniform in size, shape, colour and in sound merchantable condition;
- (c) be free from living and dead insects, fungus infestation, added colouring, matter, moulds, obnoxious smell, discolouration;
- (d) be free from rodent hair and excreta;
- (e) be free from toxic or noxious seeds viz. *Crotalaria* (*Crotalaria* spp.), Corn cockle (*Agrostemma githago* L.), Castor bean (*Ricinus communis* L.), Jimson weed (*Datura* spp.), *Argemone mexicana*, Khesari and other seeds that are commonly recognized as harmful to health;
- (f) Uric acid and Aflatoxin shall not exceed 100 milligrams and 30 micrograms per kilogram respectively;
- (g) Comply with the restrictions in regard to poisonous metals (rule-57), crop contaminants (rule 57-A), naturally occurring toxic substances (rule 57-B), use of insecticides (rule-65), and other provisions prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, as amended from time to time.

EXPLANATIONS :—

For the purpose of these rules,—

- (1) "foreign matter means any extraneous matter other than food grains comprising of;
 - (a) "Inorganic matter" includes metallic pieces, dust, sand, gravel, stones, dirt, pebbles, lumps of earth, clay and mud and animal filth etc.;
 - (b) "Organic matter" consisting of husk, straws, weeds and other inedible grains etc.;
- (2) "other edible grains" means any edible grains (including oil seeds) other than the one which is under consideration;
- (3) "damaged grains" means grains that are sprouted or internally damaged as a result of heat, microbe, moisture or weather viz., ergot affected grains and kernal bunt grains;
- (4) "Broken grains" includes pieces below 3/4th and above 1/4th of the full size splits.
- (5) "broken and fragments" includes pieces below 3/4th of the full size splits.
- (6) "weevilled grains" means grains that are partially or wholly bored by insects injurious to grains but does not include germ eaten grains and egg spotted grains.
- (6) "poisonous, toxic and/or harmful seeds" means any seeds which if present may have damaging or dangerous effect on health, organoleptic properties or technological performance such as *Datura* (*D. fastuosa* linn and *D. stramonium* linn.) Corn cockle (*Agrostemma githago* L. Machai *Lallium remulenum* linn.) Akra (*Vicia* species).

[F. No. 18011/2/2001-M-II]

P. K. AGARWAL, Jt. Secy. (Agricultural Marketing)

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2004

सा.का.नि. 130.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे सहायक तकनीकी सेवाएं (फोटोग्राफर और सहायक फोटोग्राफर पद) भर्ती नियम, 1986 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे में फोटोग्राफर और सहायक फोटोग्राफर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे सहायक तकनीकी सेवाएं (फोटोग्राफर और सहायक फोटोग्राफर पद) भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. पद का नाम	: फोटोग्राफर
2. पदों की संख्या	: 2*
	(2004)
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	: साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (अननुसचिवीय)
4. वेतनमान	: 4500-125-7000/- रु०
5. चयन या अचयन पद	: अचयन
6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	: 18 से 25 वर्ष के बीच

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण 1 : अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों, और केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा अधिसूचित कतिपय अन्य प्रवर्गों के लिए शिथिल की जा सकती है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए किसी अन्य आयु शिथिलीकरण के साथ संचयी रूप से शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

टिप्पण 3—रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं

: लागू नहीं होता

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

: (1) सेकेण्ड्री स्कूल सर्टिफिकेट या समतुल्य।

(2) मान्यताप्राप्त संस्थान से फोटोग्राफी में डिप्लोमा या एक विषय के रूप में फोटोग्राफी के साथ कला में डिप्लोमा और साथ ही दो वर्ष का अनुभव।

या

मान्यताप्राप्त संस्थान से फोटोग्राफी में प्रमाण-पत्र और साथ ही स्थिर या चल फोटोग्राफी में तीन वर्ष का अनुभव।

या

स्थिर या चल फोटोग्राफी में दस वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1—अनुभव संबंधी अर्हता कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।

: नहीं

10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।

: सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

: पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

: 1. प्रोन्नति : ऐसा सहायक फोटोग्राफर जिसने उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर 3 वर्ष की नियमित सेवा की है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके स्पष्ट व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति : ऐसे अधिकारी जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सम-तुल्य पद धारण करते हैं या सहायक फोटोग्राफर का पद धारण कर रहे हैं और मूल कैडर या विभाग में 4000-100-6000 रु० के वेतनमान में उसमें नियुक्ति के पश्चात् जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना : **समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—**

1. संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र पुणे —अध्यक्ष
2. मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे —सदस्य
3. कार्यपालक इंजीनियर (सी) या ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे —सदस्य
4. विभागीय प्रोन्नति समिति मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र से बाहर का कोई सदस्य —सदस्य

14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा : लागू नहीं होता।
आयोग से परामर्श किया जाएगा।

1. पद का नाम : सहायक फोटोग्राफर
2. पदों की संख्या : 1*
(2004)
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण : साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसूचिवीय)
4. वेतनमान : 4000-100-6000/- रु०
5. चयन या अचयन पद : लागू नहीं होता
6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा : 18 से 25 वर्ष के बीच
(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं : लागू नहीं होता

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए : (1) सेकेण्ड्री स्कूल सर्टिफिकेट या समतुल्य
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(2) मान्यता प्राप्त संस्थान से फोटोग्राफी में डिप्लोमा या एक विषय के रूप में
फोटोग्राफी के साथ कला में डिप्लोमा और साथ ही दो वर्ष का अनुभव
या
मान्यता प्राप्त संस्थान से फोटोग्राफी में प्रमाण-पत्र और उसके साथ ही स्थिर या चल
फोटोग्राफी में एक वर्ष का अनुभव
या
स्थिर या चल फोटोग्राफी में पांच वर्ष का अनुभव
टिप्पण 1—अनुभव संबंधी अर्हता कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग के
अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर
कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित
रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के
पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए : लागू नहीं होता
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। : दो वर्ष
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति : सीधी भर्ती द्वारा
द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न
पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा : लागू नहीं होता
में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन
किया जाएगा
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना : समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—
1. संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान
केन्द्र, पुणे — अध्यक्ष
2. मुख्य अनुसंधान अधिकारी,
केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे — सदस्य
3. कार्यालय इंजीनियर (सी) या ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी,
केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे — सदस्य
4. विभागीय प्रोन्नति समिति मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार
केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र से बाहर का कोई
सदस्य — सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा : लागू नहीं होता।
आयोग से परामर्श किया जाएगा।

[सं. 3-2004 फा. सं० 2/2/2003-ई० II]

गोपाल दास, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 8th April, 2004

G.S.R. 130.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Water and Power Research Station, Pune Auxiliary Technical Services (Photographer and Assistant

Photographer Posts) Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Photographer and Assistant Photographer in the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Water and Power Research Station, Pune, Auxiliary Technical Services (Photographer and Assistant Photographer Posts) Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, Classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule, annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit, and other qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (14) of the said schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living,

or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of the post	: Photographer
2. Number of post	: 2* (2004) *Subject to variation dependent on workload.
3. Classification	: General Central Service, Group 'C', (Non-Gazette), Non-Ministerial
4. Scale of pay	: Rs. 4500-125-7000
5. Whether selection post or non-selection post	: Non selection
6. Age limit for direct recruits	: Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the orders and instructions issued by the Central Government.) Note: 1. Relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes and certain other categories as notified by the Central Government from time to time. Relaxable cumulatively with any other age relaxation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes. Note: 2. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep. Note: 3 In case of appointment to be made through the Employment Exchange, the crucial date shall be the last date upto which Employment Exchange is asked to submit the names.

7. Whether benefit of added years of service is admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 : Not applicable
8. Educational and other qualifications required for direct recruits :
 (i) Secondary School Certificate or equivalent
 (ii) Diploma in Photography or diploma in arts with photography as one of the subject from recognised institute with two years experience.
 OR
 Certificate in Photography from recognised institute with three years experience in still or cine photography.
 OR
 Ten years experience in still or cine photography.
 Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes if at any stage of selection the Staff Selection Commission/competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees : No
10. Period of probation if any : Two Years for direct recruits.
11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods : Fifty percent by promotion Fifty percent by deputation failing which by direct recruitment.
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption made : **Promotion :**
 Assistant Photographer with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.
Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Deputation:
 Officers holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department or the post of Assistant Photographer with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 4000-100-6000 or equivalent in the parent cadre or department.
 (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.)

13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition : **Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :—**
1. Joint Director, Central Water and Power Research Station, Pune
—Chairman
 2. Chief Research Officer, Central Water and Power Research Station, Pune
—Member
 3. Executive Engineer(C) or Senior Research Officer, Central Water and Power Research Station, Pune
—Member
 4. A member outside Central Water and Power Research Station as per Departmental Promotion Committee guidelines
—Member
14. Circumstances which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment : Not applicable.

2. 1. : Assistant Photographer

2. : 1* (2004)

*Subject to variation dependent upon workload.

3. : General Central Service Group 'C', (Non Gazetted), Non-Ministerial

4. : Rs. 4000-100-6000

5. : Not applicable

6. : Between 18 and 25 years.

(Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep.

In case of appointment to be made through the Employment Exchange, the crucial date shall be the last date upto which Employment Exchange is asked to submit the names.

7. : Not applicable

8. : (i) Secondary School Certificate or equivalent

(ii) Diploma in Photography or diploma in arts with Photography from recognised institute as one of the Subject.

OR

Certificate in photography from recognised institute with one year's experience in still/cine photography.

OR

Five years experience in still/cine photography.

Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

9. : Not applicable

10. : Two years

11. : By direct recruitment

12. : Not applicable

13. : Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :—

1. Joint Director, Central Water and Power Research Station, Pune

—Chairman

2. Chief Research Officer, Central Water and Power Research Station, Pune, —Member.
3. Executive Engineer (C) or Senior Research Officer, Central Water and Power Research Station, Pune, —Member
4. A member outside Central Water and Power Research Station as per Departmental Promotion Committee guidelines —Member.
14. : Not applicable

[No. 3-2004 File No. 2/2/2003-E.I.]

GOPAL DASS, Under Secy.

शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2004

सा.का.नि. 131.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रकाशन विभाग (समूह ग पद) भर्ती नियम, 1978 को जहां तक उनका सवार हरकारा के पद से संबंध है, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के प्रकाशन विभाग से सवार हरकारा के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रकाशन विभाग, सवार हरकारा, भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्त्री विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

- | | |
|--|--|
| 1. पद का नाम | : सवार हरकारा |
| 2. पदों की संख्या | : *(एक)
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। |
| 3. वर्गीकरण | : साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय |
| 4. वेतनमान | : 3050-75-3950-80-4590/- रु० |
| 5. चयन या अचयन पद | : लागू नहीं होता |
| 6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | : 25 वर्ष से अनधिक
(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। |

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (उसने भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप में रहते हैं।)

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं

: लागू नहीं होता

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

: आवश्यक:

(1) मोटर साइकिल या आटोरिक्षा के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो

(2) मोटर साइकिल या आटोरिक्षा चालन का दो वर्ष का अनुभव।

(3) मोटर साइकिल या आटोरिक्षा यांत्रिकत्व कार्य का ज्ञान (पदधारी यान में नुटियों को दूर करने में समर्थ होना चाहिए)

(4) अंग्रेजी और हिंदी या उस क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा पढ़ने की योग्यता रखता हो जिसमें संबद्ध संगठन अवस्थित है।

वांछनीय:

(1) आठवां स्तर उत्तीर्ण

(2) होमगार्ड या सिविल रक्षा स्वयंसेवक के रूप अनुभव।

टिप्पण :—अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।

: लागू नहीं होता

10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।

: दो वर्ष

11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन या आमेलन, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

: प्रकाशन विभाग में नियमित समूह व कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों से नियमित सवार हरकारा या समूह व कर्मचारियों से जो स्तंभ 8 में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता और अनुभव रखते हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए

प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन

ऐसे सशस्त्र बल कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में तैनात किए जाने वाले हैं और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित अनुभव और शैक्षिक अर्हता हैं पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति की अवधि दी जाएगी जिसको वे सशस्त्र बल से मुक्त होने वाले हैं, तत्पश्चात वे पुनर्नियोजन पर बने रह सकते हैं।

छोटी

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना : समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए)

1. प्रकाशन का उप नियंत्रक या नियंत्रक —अध्यक्ष

2. सहायक नियंत्रक (प्रशासन) —सदस्य

3. अवर सचिव (लेखन सामग्री और प्रकाशन)
शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय —सदस्य

14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा : लागू नहीं होता
आयोग से परामर्श किया जाएगा।

[फाइल सं० ए-12018/2/2001-पी बी एन]

श्याम सुन्दर, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION

New Delhi, the 8th April, 2004

G.S.R. 131.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Publication (Group C post) Recruitment Rules 1978, in so far as they relate to the post of Dispatch Rider, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Dispatch Rider in the Department of Publication, Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Department of Publication Dispatch Rider Recruitment Rules, 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, Classification and scale of pay.**—The number of posts, classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age limit and other qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Name of the post | : Dispatch Rider |
| 2. Number of post | : One* *Subject to variation dependent on workload. |
| 3. Classification | : General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted (Non-Ministerial) |
| 4. Scale of pay | : Rs. 3050-75-3950-80-4590/- |

5. Whether selection post or non-selection post : Not applicable
6. Age limit for direct recruitment : Not exceeding 25 years.
(Relaxable for Government servants upto the age of 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).
In the case of recruitment made through Employment Exchange the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.
7. Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 : Not applicable
8. Educational and other qualification required for direct recruitment : **Essential.**
(i) Possessing a valid driving licence for Motor-Cycle or Autorickshaw;
(ii) two years experience in driving Motor-Cycle or Autorickshaw;
(iii) knowledge of Motor-Cycle or Autorickshaw mechanism. (The incumbent should be able to remove minor defects in the vehicles);
(iv) ability to read English and Hindi or Regional Language of the area in which the concerned Organization is situated.
Desirable:
(i) a pass in the 8th Standard;
(ii) experience as Home Guards or Civil Defence Volunteers.
Note : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of Candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
9. Whether age and Educational Qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees : Not applicable
10. Period of probation if any : Two years
11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods : Deputation or re-employment or absorption, failing which by direct recruitment.
12. In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made : Deputation from amongst regular Group 'D' employees in the Department of Publication failing which from regular Dispatch Rider or Group 'D' employees from other Ministries of the Central Government who possess the qualification and experience prescribed for direct recruits in column (8).

For Ex-Servicemen:

Deputation or re-employment

The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be deputed to reserve within a period of one year and having the requisite experience and educational qualification prescribed for direct recruits shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.

(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceeding three years.)

13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation)

Deputy Controller or Controller of Publication

—Chariman

Assistant Controller (Administration)

—Member

Under Secretary (Stationery and Publication),
Ministry of Urban Development and Poverty
Alleviation

—Member

14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

Not application.

[F. No. A-12018/2/2001-PBN]

SHYAM SUNDER, Under Secy.